



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2003/माघ 4, 1924

No. 59]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2003/MAGHA 4, 1924

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2003

**का.आ. 72 (अ).—**केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० 263 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2002 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2 खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में वालाजाह तालुक के अरपक्कम से वेण्णूर गाँव के बीच (127/450 कि.मी. से 139/950 कि.मी. तक) लोक प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 के (कृष्णागिरी - रानीपेट खण्ड) को चार लेन का बनाने के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, सभी विल्लंगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

## अनुसूची

जिला : बेल्लोर

तालुका : बालाजाह

क्र.सं.	गैव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की किस्म	भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	भूस्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मेलविशारम	7/4ए2	निजी	नम	400	एन.राजनदीरन, पुत्र नटराजन, मेलविशारम
		9/1बी	निजी	नम	30	1. सलीमाबी पत्नी मोहम्मद इशाक, मेलविशारम 2. सेतु पुत्र वीरासामी, मेलविशारम.
		9/2ए2	निजी	नम	40	1. सेतु पुत्र वीरासामी, कीलविशारम 2. एन.राजनदीरन, पुत्र नटराजन कीलविशारम 3. अम्मा पत्नी मुनीसामी, कीलविशारम
		9/4बी	निजी	नम	50	1. एन.राजनदीरन, पुत्र नटराजन कीलविशारम, 2. सेतु पुत्र वीरासामी कीलविशारम
		9/5बी	निजी	नम	650	1. शाहिराबी, पत्नी स्व. अखारूसैन मेलविशारम, 2. एन.राजनदीरन, पुत्र नटराजन, कीलविशारम
		21/1	निजी	नम	100	1. पंजालाई, पत्नी नटराजन, कीलविशारम 2. जयन्ती पत्नी अमीरथालिगम 3. अब्दुल रागमन, पुत्र अब्दुल वाखव, मेलविशारम, 4. ताजीनिशा, पत्नी अब्दुल रागमन, मेलविशारम
		22/1बी	निजी	नम	261	1. पंजालाई पत्नी नटराजन, कीलविशारम 2. जयन्ती, पत्नी अमीरथालिगम, कीलविशारम.
		23/1बी	निजी	नम	170	1. पंजालाई पत्नी नटराजन, कीलविशारम 2. जयन्ती, पत्नी अमीरथालिगम, कीलविशारम.
		26/3ए2	निजी	नम	506	1. वी.एम.अनवारुल्ला पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम. 2. वी.एम.रीजवानुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम.
		26/4बी	निजी	नम	446	1. वी.एम.अनवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम 2. वी.एम.रीजवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम.
		26/5बी	निजी	नम	551	1. वी.एम.अनवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम 2. वी.एम.रीजवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम.
		30/4बी	निजी	नम	20	1. वी.एम.अनवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम 2. वी.एम.रीजवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला,

						मेलविशारम.
		30/5बी	निजी	नम	23	1. वी.एम.अनवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम 2. वी.एम.रीजवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम.
		30/6बी	निजी	नम	39	1. वी.एम.अनवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम 2. वी.एम.रीजवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम.
		30/7बी	निजी	नम	62	1. वी.एम.अनवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम 2. वी.एम.रीजवारुल्ला, पुत्र स्व. औथाल्ला, मेलविशारम.
		30/8ए	निजी	नम	300	1. सलाउद्दीन, पत्नी जमालुद्दीन मेलविशारम 2. नसीराबेगम, पत्नी स्व. अठबासा मेलविशारम 3. अनवारुल्ला पुत्र औथाल्ला मेलविशारम 4. आर.के.अठबासा पुत्र आर.के.बाबु मेलविशारम
		33/1बी	निजी	नम	643	टी.पागीरथीयम्मल पत्नी हरीदेवन मेलविशारम.
		34/1ए2	निजी	नम	526	1. असलम पुत्र नजीरवासा, पेरनामपट्टू 2. ताजीउनिशा पत्नी अब्दुल रागमम कीलविशारम.
		44/1ए1	निजी	नम	150	1. मदीनाबी पत्नी अब्दुल अजीस - मेलविशारम. 2. हाउहबी पत्नी अब्दुल सुखुर - मेलविशारम 3. रागिदा बेगम पत्नी अब्दुल कादर मेलविशारम. 4. असलम पुत्र नजीरवासा, मेलविशारम.
		44/1ए3ए	निजी	नम	600	1. मदीनाबी पत्नी अब्दुल अजीस - मेलविशारम. 2. हाउहबी पत्नी अब्दुल सुखुर - मेलविशारम 3. रागिदा बेगम पत्नी अब्दुल कादर मेलविशारम. 4. असलम पुत्र नजीरवासा, मेलविशारम.
		44/1ए2	निजी	नम	100	मुथु मेगाजामीन पत्नी अब्दुल अजीस मेलविशारम.
		44/1ए4	निजी	नम	150	रशीदाबेगम पुत्र अब्दुल कादर - मेलविशारम.
		45/2ए2	निजी	नम	86	1. मुथु मेगर जामिन पत्नी अब्दुल अथील 2. मदीनाबी पत्नी अब्दुल अजीस 3. सीनमेश असराप्पुनीसा पत्नी अब्दुल बासा, 4. काथी जाबी पत्नी अब्दुल अजीस, मेलविशारम.
		45/2ए3	निजी	नम	31	1. मुथु मेगर जामिन पत्नी अब्दुल अथील 2. मदीनाबी पत्नी अब्दुल अजीस 3. सीनमेश असराप्पुनीसा पत्नी अब्दुल बासा,

						4. काथी जाबी पत्नी अब्दुल अजीस, मेलविशारम.
		45/2बी2	निजी	नम	38	मुथु मेगर जामिन पत्नी अब्दुल अथील मेलविशारम.
		46/1ए2	निजी	नम	33	1. धीलरासपति माबी, पत्नी मोहम्मद अनवर, धर्मापुरी 2. जौमुलाबीन, पुत्र सामेद साहेब, मेलविशारम. 3. मोहम्मद युसान, पुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला, 4. मोहम्मद अनवर पुत्र अब्दुल कानी, 5. अब्दुल रहमान, पुत्र अब्दुल वाखव, मेलविशारम.
		46/2बी2	निजी	नम	045	हाउहारबी पत्नी अब्दुल सुखर, मेलविशारम.
		46/1एफ2	निजी	नम	102	1. आयसा बासा, पुत्र मोहम्मद बासा, मेलविशारम. 2. ताजीमुनिशा, पत्नी अब्दुल रहमान, मेलविशारम.
		46/1जी2	निजी	नम	83	अब्दुल रहमान, पुत्र अब्दुल वाखव, मेलविशारम.
		72/1	निजी	नम	100	मोहम्मद आयाब, पुत्र स्व. अहमद बासा, मेलविशारम.
		84/1ए2	निजी	नम	196	1. टी.ए.अब्दुल सलीम, पुत्र स्व. अब्दुल बाखव, 2. वेल्लीकन अश्माबेगम पुत्र बाकथीनी अब्दुल जामील 3. मोहम्मद इलियास पुत्र मोहम्मद इब्राहीम, 4. मोहम्मद नागीस पुत्र अब्दुल अजीस, मेलविशारम
		84/1बी2	निजी	नम	78	वेल्लीकन आशमाबेगम, पत्नी बाकथीनी अब्दुल जामील, मेलविशारम
		85/1ए2	निजी	नम	35	तिरुमति मेगारुनिशा, पत्नी स्व. अहमद बासा, मेलविशारम.
		85/2ए2	निजी	नम	142	मोहम्मद आयाब, पुत्र स्व. अहमद बासा, मेलविशारम.
		85/3ए2	निजी	नम	119	मोहम्मद आयाब, पुत्र स्व. अहमद बासा, मेलविशारम.
		87/1ए2	निजी	नम	40	तिरुमति मेगारुनिशा, पत्नी स्व. अहमद बासा, मेलविशारम.
		88/2ए	निजी	नम	100	वेल्लीकन आशमाबेगम, पत्नी अब्दुल जामील, मेलविशारम.
		88/3ए2	निजी	नम	70	तिरुमति जुबेदाबी पत्नी नजीरबासा पेशमबूर
		93/1ए2	निजी	नम	236	तिरुमति मेगारुनिशा, पत्नी स्व. अहमद बासा, मेलविशारम.
		94/1बी	निजी	नम	235	अब्दुल कुदुस पुत्र अब्दुल अजीस, मेलविशारम.
		95/1बी	निजी	नम	285	1. जागीर बानु, पत्नी शाहीर अहमद 2. मोहम्मद मुल्ता, पुत्र मोहम्मद अकबर 3. थीलगथ बेगम, पत्नी सुलेमान, 4. अब्दुल कुदुस, पुत्र अब्दुल अजीस, मेलविशारम.

		96/3बी	निजी	नम	4	तिरूमति अंजुम, पत्नी एस.एम.उसमान साहेब, मेलविशारम
		96/4बी	निजी	नम	92	1. एस. अलमासगोवसार, पुत्र उसैन अहमद 2. एम. अंजुम, पत्नी एस.एम.उसमान साहेब, मेलविशारम
		104/1ए2	निजी	नम	61	एम.एम.डी.शमीम, पुत्र मोहम्मद असीम, मेलविशारम
		106/1ए2	निजी	नम	405	एम.एम.डी.शमीम, पुत्र मोहम्मद असीम, मेलविशारम
		106/2ए2	निजी	नम	214	1. जागीर बानु, पत्नी शाहीर अहमद 2. मोहम्मद मुल्ला, पुत्र मोहम्मद अकबर 3. थीलगथ बेगम, पत्नी सुलेमान, 4. अब्दुल कुदुस, पुत्र अब्दुल अजीस, मेलविशारम.
		127/1ए2	निजी	नम	70	1. रागना बेगम, पत्नी इब्राहीम 2. अमीरुन्निशा, पत्नी काबेदीर रागमन, 3. बेरानाबेगम, पत्नी सलाउद्दीन, 4. सबाना पत्नी इमायादुल्ला, 5. सलाउद्दीन पुत्र स्व. अब्दुल्ला, मेलविशारम.
		128/2ए2	निजी	नम	324	अरीवायगन, (धर्माकर्था), ईश्वरन कोल, मेलविशारम.
		130/2	निजी	नम	175	1. राजेनाबेगम, पत्नी इब्राहीम 2. अमीरुन्निशा, पत्नी काबेदीर रागमन, 3. बेरानाबेगम, पत्नी सलाउद्दीन, 4. सबाना पत्नी इमायादुल्ला, 5. सलाउद्दीन पुत्र स्व. अब्दुल्ला, मेलविशारम.
		138/1ए	निजी	नम	100	थाउशीप अहमद, पुत्र अथालाब अहमद, मेलविशारम.
		139/1ए	निजी	नम	100	1. एस.जमातुद्दीन पुत्र सामसुलथा शायब, मेलविशारम 2. थाउशीप अहमद, पुत्र अथालाब अहमद, मेलविशारम.
		145/2	निजी	शुष्क	116	अरीवायगन पुत्र दक्शनामूर्ति (धर्माकर्था), ईश्वरन कोल, मेलविशारम.
		165/1	निजी	नम	100	1. सागीरा बानु, पत्नी जनापदीन, 2. अब्दुल जामील, पुत्र इशाकसाहेब, मेलविशारम.
		165/2	निजी	नम	100	1. सागीरा बानु, पत्नी जनापदीन, 2. अब्दुल जामील, पुत्र इशाकसाहेब, मेलविशारम.
		165/3ए	निजी	नम	100	अरीवायगन पुत्र दक्शनामूर्ति (धर्माकर्था), ईश्वरन कोल, मेलविशारम.
		165/4ए	निजी	नम	250	1. एम.आर.सागीरा बानु, पत्नी जैरुल्लादीन, मेलविशारम.
		173/2ए2	निजी	नम	470	के.एम.बारूक साहेब, पुत्र स्व. मोहम्मद इब्राहीम, मेलविशारम
		174/2ए2	निजी	नम	336	के.एम.बारूक साहेब, पुत्र स्व. मोहम्मद इब्राहीम, मेलविशारम
		175/2ए2	निजी	नम	207	1. तिरूमति सयथाबी बेगम, पत्नी

						बारूकसाहेब, 2. लतीफ साहेब, पुत्र इसमाइल साहीब, मेलविशारम
		176/1बी	निजी	नम	85	1. तिरुमति सयथाबी बेगम, पत्नी बारूकसाहेब, 2. लतीफ साहेब, पुत्र इसमाइल साहीब, मेलविशारम
		184/2बी	निजी	नम	62	सयथाबीन बेगम, पत्नी के.एम. बाराक साहेब, मेलविशारम.
		200/1बी	निजी	नम	5	मोहम्मद इसमाइल, पुत्र मोहम्मद इब्राहीम, मेलविशारम
		202/1ए2	निजी	नम	113	मेगरुनिशा पत्नी स्व. अहमद बासा, मेलविशारम
		204/1ए2	निजी	नम	181	अब्दुल सलीम, पुत्र स्व. अब्दुल वहाब, मेलविशारम.
		204/2ए2	निजी	नम	294	अब्दुल रजीद, पुत्र स्व. अब्दुल जाबर, मेलविशारम.
		205/1ए2	निजी	नम	150	के.सी.अघकर अहमद, पुत्र स्व. अब्दुल सुबान, मेलविशारम.
		205/2ए2	निजी	नम	157	के.सी.अघकर अहमद, पुत्र स्व. अब्दुल सुबान, मेलविशारम.
		205/3ए2	निजी	नम	152	तिरुमति जागीरुनिशा, पत्नी मोहम्मद यागीब, मेलविशारम.
		206/1ए1 बी	निजी	नम	196	चानदीरालेका पत्नी बालारमण, वेल्डोर.
		206/1बी1 बी	निजी	नम	207	यासमीन बानु, पत्नी रागामादुला, मेलविशारम.
		206/2ए2	निजी	नम	523	अब्दुल सलीम साहेब, पुत्र स्व. इसमाइल साहीब, मेलविशारम.
		208/1ए	निजी	नम	300	अनवर बासा, पुत्र के. पीयारा जौन, रानीपेट
		208/2ए	निजी	नम	50	अब्दुल सलाम साहेब, पुत्र स्व. इसमाइल साहेब, रानीपेट
		237/1ए1 बी	निजी	शुष्क	367	1. नीजार अहमद, पुत्र स्व. अब्दुल रशीद, 2. जाबार अहमद, पुत्र स्व. अब्दुल रशीद, मेलविशारम.
		238/1बी	निजी	नम	910	जी.एम. कालीमुल्ला, पुत्र अब्दुल लतीफ साहेब, मेलविशारम
		240/2	निजी	शुष्क	24	अब्दुल मजीद, पुत्र इकबाल अहमद, मेलविशारम.
		257/3ए2	निजी	शुष्क	624	एम. जारबारुल्ला, पुत्र मोहम्मद मुजार, मेलविशारम
		258/1ए1 बी	निजी	शुष्क	637	1. एम.डी.मोहम्मद अयूब, पुत्र स्व. अब्दुलगानी 2. मोहम्मद यूसुफ पुत्र स्व. अब्दुल गनी, 3. खुरुशीथ बेगम, पुत्री अब्दुल गनी 4. शामीना बानु, पुत्री अब्दुल गनी, मेलविशारम.
		258/1बी2	निजी	शुष्क	1023	1. मलक मोहम्मद थामीम, पुत्र मलक अजी मोहम्मद अजीम, मेलविशारम. 2. मोहम्मद अयूब, पुत्र अब्दुल गनी, मेलविशारम.
2	किल्मीनल	286/1ए	निजी	मकान स्थल	500	1. लक्ष्मी पत्नी मणी मान्द्रीरी,

						2. अमेरिका पत्नी सुकुरी, 3. अदहीमुलाम, पुत्र दुराईसामी, पुत्तुथाकु.
		286/1बी	निजी	मकान स्थल	250	1. इल्लामल, पत्नी रामासामी, पुत्तुथाकु.
		286/1सी	निजी	मकान स्थल	150	1. जमुना, पत्नी कुमार अचेरी, मेलाकुप्पम.
		286/2ए1	निजी	शुष्क	135	अधिमुलम, पुत्र दुराईसामी, पुत्तुथाकु, माला, पत्नी माधवा मन्दिरी, पुत्तुथाकु.
		286/2बी1	निजी	शुष्क	93	1. कृष्णा मन्दिरी, पुत्र रंगा मन्दिरी, पुत्तुथाकु, पुरुषोत्तम, पुत्र नारायणासामी, पुत्तुथाकु.
		287/1ए	निजी	मकान स्थल	100	1. जमुना, पत्नी कुमार अचेरी, मेलाकुप्पम.
		287/1बी	निजी	मकान स्थल	200	1. कृष्णा मन्दिरी, पुत्र रंगा मन्दिरी, पुत्तुथाकु.
		287/2ए	निजी	शुष्क	103	1. पुरुषोत्तम, पुत्र नारायणासामी, 2. आर.कान्नी, पत्नी राजेन्दिरन, पुत्तुथाकु.
		287/3ए	निजी	शुष्क	600	1. कृष्णामन्दिरी, पुत्र रंगा मन्दिरी, पुत्तुथाकु 2. मन्नाप्रकाशम, पुत्र पटचायप्पा मुदली, साधुवाचारी 3. मायावाथी, पत्नी नटराजन, पुत्तुथाकु.
		287/3बी1	निजी	मकान स्थल	232	सुब्रामनी, पुत्र अरुमुगम, कीलमीनल.
		287/3बी2	निजी	मकान स्थल	218	1. इकामबारा मुदली, पुत्र गोविन्दा राजु मुदली, मेलाकुप्पम, 2. कल्याणी, पत्नी शेखर, मेलाकुप्पम, 3. नातेशा मुदली, पुत्र गोविन्दाराजी, मेलाकुप्पम. 4. पालानी, पुत्र अरुमुगम, पुत्तुथाकु.
		287/3सी1ए	निजी	शुष्क	577	1. पुरुषोत्तम, पुत्र नारायणासामी, पुत्तुथाकु 2. नातेशा मुदली, पुत्र गोविन्दाराजी, कीलमीनल. 3. रविचन्द्रण, पुत्र कालासथ्रीउदयार, वेल्तोर 4. एम. कृष्णन, पुत्र मुरुकैसान, मानगुप्पम.
		287/4ए	निजी	मकान स्थल	300	1. पुरुषोत्तम, पुत्र नारायणासामी, पुत्तुथाकु 2. मालीगा पत्नी कुलानडाई, पुत्तुथाकु.
		287/4बी	निजी	मकान स्थल	300	1. इल्लामल, पत्नी रामासामी, पुत्तुथाकु.
		287/4सी1	निजी	मकान स्थल	295	1. पुरुषोत्तम, पुत्र नारायणासामी, पुत्तुथाकु 2. माला पत्नी माधवा मन्दिरी, पुत्तुथाकु.
		287/4सी2ए	निजी	शुष्क	1002	1. माला पत्नी माधवा मन्दिरी, पुत्तुथाकु. 2. तमिलारासी, पत्नी षण्मुगम, पुत्तुथाकु.
		288	निजी	शुष्क	550	1. गोविन्दासामी, पुत्र मुनीसामी, 2. कुपुसामी, पुत्र रमणजालु 3. पाप्पाईयान, पुत्र गोविन्दासामी. 4. रामामूर्ति, पुत्र गोविन्दासामी, पुत्तुथाकु.
		289/2ए	निजी	शुष्क	3320	1. पाप्पाईयान, पुत्र गोविन्दासामी, 2. गोविन्दासामी, पुत्र मुनीसामी, 3. रामामूर्ति, पुत्र गोविन्दासामी, पुत्तुथाकु 4. अमुदा पत्नी सादाशिवम, मेलाकुप्पम 5. अमसा पत्नी पालानी, नारायणापुरम. 6. पदमिणी, पत्नी सुब्रामनी 7. कुप्पुसामी, पुत्र माहादेवापिल्लई 8. महादेवापिल्लई, पुत्र अप्पापिल्लई 9. जी. मणी, पुत्र गोविन्दासामी.

						10. एम. कारपागम पत्नी मूर्ति 11. इलुमालाई, पुत्र अप्पाकुथी, 12. शेखर, पुत्र पुन्नीयाकोटी, 13. मुरुगेसान, पुत्र कुप्पासामी 14. शिवागामी, पत्नी बालारामन 15. गणेशन, पुत्र कुप्पासामी, 16. के. वीनायागम, पुत्र कुप्पासामी, 17. वेंकटेशन, पुत्र गोविन्दन, पुत्तुथाकु.
		290ए/1ए	निजी	शुष्क	840	1. वेंकटेशन, पुत्र गोविन्दन, 2. वागीरावेल, पुत्र उमापति 3. मुरुकेशन, पुत्र गंगागाउडर, पुत्तुथाकु. 4. जयपाल पुत्र कुप्पासामी, गुडियाथम 5. बानुमती, पत्नी स्व. पालानी, पुत्तुथाकुस.
		290बी/1ए	निजी	शुष्क	795	कुप्पाम्मल, पत्नी कुप्पासामी, कील्मीनल
		291/1	निजी	शुष्क	3462	कृष्ण, पुत्र कनियप्पा गौडर, पुत्तुथाकु
		313/2ए1	निजी	शुष्क	418	1. विनोदकुमार, पुत्र गणेशन, 2. शंकर, पुत्र मुत्तुसामी @ बाबु, पुत्तुथाकु.
		313/2बी1	निजी	शुष्क	60	1. विनोदकुमार, पुत्र गणेशन, 2. शंकर, पुत्र मन्नारसामी 3. कनियाम्मल, पत्नी अन्नामलाई, पुत्तुथाकु.
		313/2सी1	निजी	शुष्क	380	1. के. विनोदकुमार पुत्र गणेशन, पुत्तुथाकु, 2. शंकर पुत्र मन्नारसामी, पुत्तुथाकु.
		313/2डी	निजी	शुष्क	350	कनियाम्मल, पत्नी अन्नामलाई, पुत्तुथाकु.
		313/2ई1	निजी	शुष्क	549	1. कान्थावनी, पत्नी वेल्लई, 2. राजेन्द्रन, पत्नी वेल्लई, 3. कन्नीयपन्न पुत्र वेल्लई, 4. बाजीरावेल पुत्र वेल्लई, पुत्तुथाकु.
		314/1बी1ए	निजी	शुष्क	400	जानागीरमान, पुत्र मुरुगाप्पा, कील्मीनल
		314/1बी4ए	निजी	शुष्क	1198	मुमताज बेगम, पत्नी मोहम्मद असीपुला, साथुवाचारी.
		314/2ए2ए	निजी	शुष्क	1608	1. रामामूर्ति, पुत्र संजीवी 2. वेणुगोपाल, पुत्र संजीवी 3. करुणाकरण, पुत्र संजीवी 4. उषारानी, पत्नी कन्नैया, कन्निगापुरम
		314/2सी2ए	निजी	शुष्क	1121	1. रामामूर्ति, पुत्र संजीवी 2. वेणुगोपाल, पुत्र संजीवी 3. करुणाकरण, पुत्र संजीवी 4. उषारानी, पत्नी कन्नैया, कन्निगापुरम
		314/2डी1	निजी	शुष्क	80	1. रामामूर्ति, पुत्र संजीवी 2. वेणुगोपाल, पुत्र संजीवी 3. करुणाकरण, पुत्र संजीवी 4. उषारानी, पत्नी कन्नैया, कन्निगापुरम
		319/1ए1	निजी	नम	230	वी.एस. नाथन, पुत्र वेल्लईयन, वेल्लोर
		319/1बी1	निजी	नम	456	आर. कुमार, पुत्र रामागौडर, मुथुसामी, पुत्र रामासामी, कन्निगापुरम
		319/2ए	निजी	नम	578	आर. कुमार, पुत्र स्व. रामागौडर, कन्निगापुरम
		320/1ए1	निजी	शुष्क	72	पेरीयप्पा, पुत्र बीमा गौडर, कन्निगापुरम
		322/1	निजी	शुष्क	1895	वी.एस. नाथन, पुत्र वेल्लईयन, वेल्लोर
		153/3	निजी	शुष्क	200	सदयन, पुत्र कृष्णन, कन्निगापुरम



						जगदेवन, पुत्र कृष्णा गौडर, कनिगापुरम
		153/4	निजी	शुष्क	200	1. सदयन, पुत्र कृष्ण, जगदेव पुत्र कृष्ण, कनिगापुरम
		153/5	निजी	शुष्क	250	टी. मुनीसामी, पुत्र थानडावरयन, कनिगापुरम
		153/6ए	निजी	शुष्क	705	गोविन्दाम्मल, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम
		153/7ए	निजी	शुष्क	75	1. रामासामी, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम 2. नारायणासामी, पुत्र पेरीयप्पा @ मुनीसामी, कनिगापुरम
		153/8ए	निजी	शुष्क	120	धानाशेकरन, पुत्र वीरासामी, कनिगापुरम थामोडरम, पुत्र नारायणन, कनिगापुरम
		153/15ए	निजी	शुष्क	520	1. रामासामी, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम 2. नारायणासामी, पुत्र पेरीयप्पा, कनिगापुरम 3. गोविन्दाम्मल, पत्नी पेरुमल कनिगापुरम
		153/16ए	निजी	शुष्क	540	1. रामासामी, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम 2. नारायणासामी, पुत्र पेरीयप्पा, कनिगापुरम 3. मुनीसामी, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम 4. इल्लाम्मल, पत्नी पेरुमल, कनिगापुरम
		153/17ए	निजी	शुष्क	565	1. रामासामी, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम 2. नारायणासामी, पुत्र पेरीयप्पा कनिगापुरम
		153/32ए	निजी	शुष्क	80	चिन्नाकुलान्दाई, पुत्र स्व. गोपाल कनिगापुरम
		153/33	निजी	शुष्क	500	1. दामोदरम, पुत्र नारायणासामी, कनिगापुरम 2. चिन्नाकुलान्दाई, पुत्र स्व. गोपाल कनिगापुरम
		153/34	निजी	शुष्क	500	1. गोपाल पुत्र गोपाल गौडर, कनिगापुरम 2. चिन्नाकुलान्दाई, पुत्र स्व. गोपाल कनिगापुरम
		153/35ए	निजी	शुष्क	40	गोपाल पुत्र गोपाल गौडर, कनिगापुरम
		153/41ए	निजी	शुष्क	15	1. मोहनदीस पुत्र गोपाल, कनिगापुरम 2. सागादेवन पुत्र चिन्नासज, कनिगापुरम
		153/42ए	निजी	शुष्क	15	टी. मुनीसामी, पुत्र थानडावरयन, कनिगापुरम
		153/43ए	निजी	शुष्क	15	पीटचानदी, पुत्र पेरीयासामी, कनिगापुरम
		153/44ए	निजी	शुष्क	20	कुप्पासामी, पुत्र अप्पासामी, कनिगापुरम
		153/45ए	निजी	शुष्क	20	नारायणन, पुत्र वीरासामी, कनिगापुरम
		153/46ए1	निजी	शुष्क	1260	थामोदरम, पुत्र नारायणासामी, कनिगापुरम
		153/46बी1	निजी	शुष्क	25	टी. मुनीसामी, पुत्र थानडावरयन, कनिगापुरम थामोदरम, पुत्र नारायणासामी, कनिगापुरम मुनीसामी, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम इल्लाम्मल, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम
		153/49ए	निजी	शुष्क	40	पीटचानदी, पुत्र पेरीयासामी, कनिगापुरम
		152/2ए	निजी	मकान स्थल	132	अरुमुगम, पुत्र धनपाल, कनिगापुरम
		152/3ए	निजी	मकान स्थल	155	दामोदरम, पुत्र नारायणासामी, कनिगापुरम

		152/4	निजी	मकान स्थल	82	1. पाथराजालाम, पुत्र नारायणासामी, कनिगापुरम
		152/5ए	निजी	मकान स्थल	243	1. मुनीराम, पुत्र पेरुमल, कनिगापुरम 2. इल्लाम्मल, पत्नी पेरुमल, कनिगापुरम
		152/6	निजी	मकान स्थल	74	मुनीयाम्मल पुत्र स्व. सुब्रामनी, कनिगापुरम
		152/7	निजी	मकान स्थल	45	राजाम्मल, पत्नी नारासीमन पालानी पुत्र कुप्पासामी, कनिगापुरम
		152/8	निजी	मकान स्थल	214	अरुमुगम, पुत्र धनपाल, कनिगापुरम
		152/9	निजी	मकान स्थल	159	मैलवागनम, पुत्र गोपाला कृष्णन, कनिगापुरम, रवि पुत्र गोपाला कृष्णन, कनिगापुरम
		152/10	निजी	मकान स्थल	106	इंदिरानैम्मल, पत्नी स्व. मुनीराथीनम, कनिगापुरम
		152/11	निजी	मकान स्थल	169	पेरीयप्पा गौंडर, पुत्र बीमा मेरुमेसन, कनिगापुरम
		152/12	निजी	मकान स्थल	144	इल्लप्पन पुत्र स्व. मुरुगा गौंडर, कनिगापुरम
		152/13	निजी	मकान स्थल	154	रामामूर्ति, पुत्र संजीवी गौंडर, कनिगापुरम
		152/14	निजी	मकान स्थल	312	इल्लाम्मल, पत्नी पेरुमल, कनिगापुरम
		149/1ए	निजी	मकान स्थल	75	1. चिन्नाकुलानदाई, पत्नी स्व. गोपाल, कनिगापुरम 2. कुप्पासामी, पुत्र अप्पासामी, कनिगापुरम 3. अरुमुगम, पुत्र धनपाल, कनिगापुरम 4. नीलाकंदन, पुत्र सादायन, कनिगापुरम 5. रुक्मिणी, पत्नी जगदेवन, कनिगापुरम
		460/2	निजी	शुष्क	305	अरुलमिगु काशीविश्वनाथर कौल
		326/2	निजी	शुष्क	904	अरुलमिगु काशीविश्वनाथर कौल
		329/1सी	निजी	शुष्क	1434	1. आर. कृष्णन, पुत्र स्व. रत्ना मुदाली, पुत्तुथाकु 2. रामम्मल, पत्नी जयारामा गौंडर, पुत्तुथाकु 3. मणी, पुत्र चिन्नराजी गौंडर, कनिगापुरम 4. चिन्नराज पुत्र वेल्लई, कनिगापुरम 5. वेल्लोर सोसायटी कीलमीनल का पादरी का क्षेत्र
		329/2बी	निजी	शुष्क	624	1. चिन्नराजी, पुत्र वेल्लई कनिगापुरम 2. मणी, पुत्र चिन्नराजी, कनिगापुरम
		352/2बी	निजी	शुष्क	42	1. पेरीयप्पा, पुत्र बीमा संजीवी, कनिगापुरम
		352/3बी	निजी	शुष्क	185	लोगानाथन, पुत्र सुब्रामणी, कनिगापुरम
		352/4बी	निजी	शुष्क	160	अल्लीमुथु, पुत्र सुब्रामणी, कनिगापुरम
		355/1बी2	निजी	शुष्क	800	चिन्नाराज, पुत्र वेल्लई, सागादेवन पुत्र चिन्नाराज, मणी, पुत्र चिन्नाराज, मोहनदौस, पुत्र गोपाल, कनिगापुरम गाँव
		355/2बी	निजी	शुष्क	50	अनिश अहमद, मेलविशारम
		354/2ए3बी	निजी	शुष्क	700	चिन्नाराज, पुत्र वेल्लई, सागादेवन पुत्र चिन्नाराज, मणी, पुत्र चिन्नाराज, मोहनदौस, पुत्र गोपाल, कनिगापुरम गाँव
		354/2ए4बी	निजी	शुष्क	500	सांथा, पत्नी जयागोपी, पेरुमल, पुत्र स्व. दुराईराज, कनिगापुरम
		354/2ए12बी	निजी	शुष्क	250	मुनियाम्मल, पत्नी पेरुमल, कनिगापुरम
		354/2ए13बी	निजी	शुष्क	212	मुनियाम्मल, पत्नी पेरुमल, कनिगापुरम

		354/2ए17बी	निजी	शुष्क	165	आर.कुमार, पुत्र रामागौडर, कनिगापुरम अमरावती, पत्नी पेशीयप्पा, कनिगापुरम.
		354/2ए18बी	निजी	शुष्क	22	आर.कुमार, पुत्र रामागौडर, कनिगापुरम अमरावती, पत्नी पेशीयप्पा, कनिगापुरम.
		354/2बी2	निजी	शुष्क	350	सांथा पत्नी जयागोपी, कनिगापुरम
		351/1ए2	निजी	शुष्क	1238	अमरावती, पत्नी पेशीयप्पा, कनिगापुरम.
		350/1बी	निजी	शुष्क	514	1. रेणुगा, पत्नी थानीगाईवेल, कनिगापुरम 2. शंकर, पुत्र नारायणासामी, कनिगापुरम 3. थानीगाईवेल, पत्नी जामबुलीगम, कनिगापुरम 4. सामुन्दीस्वरी, पत्नी शंकर, कनिगापुरम
		461/1ए2	निजी	शुष्क	1200	दक्षनामूर्ति पुत्र मारगासागया गौडर, कंडासामी, पुत्र सादैप्पन, मालाथी पत्नी महालिंगम, दामोदरन पुत्र बालारमण, विश्वनाथन पुत्र स्व. सत्या, वाराडाचारी, प्रकाशम पुत्र भीमा राज, बाबु, पुत्र भीमाराज, कनिगापुरम
		463/2	निजी	शुष्क	233	1. कंडासामी, पुत्र सत्या गौडर, पुत्तुथाकु
3	अरपक्कम	207/4	निजी	शुष्क	1532	1. एस.पी.संथालिंगम 2. एस.पी.गणेशन 3. एस.पी.राधाकृष्णन 4. एस.पी.दायालन पुत्र स्व. पुन्नुसामी, साथुवाचारी.
		207/6	निजी	शुष्क	200	1. इकाब्रम चेट्टी 2. जगन्नाथ चेट्टी 3. देवासीगामानी, पुत्र श्रीनिवासा चेट्टी 4. दक्षनामूर्ति 5. काशी, पुत्र सदाशिवम 6. मोहम्मद इसमाइल, वेल्तोर
		207/7	निजी	शुष्क	1162	पाथीमासोवथी, पत्नी साईद अहमद रागीला पत्नी साबुथुबुल्लाह साहेब, वेल्तोर.
		207/1बी1	निजी	शुष्क	2420	1. शंकरण तामविरम, पुत्र पुन्नियाकोडी रंगापुरम
		222/8ए1	निजी	शुष्क	1085	1. सुब्रामणी, पुत्र स्व. मोनिचका गौडर अरपक्कम, 2. ए. मुरुकेशन पुत्र अरुणाचलम, वेल्तोर. 3. चिन्ना कुलानदाई, पुत्र कुप्पा गौडर, अरपक्कम.
		222/12ए1	निजी	शुष्क	300	नटराजा मुदलियार, पुत्र देशीनगु मुदलियार, अरपक्कम.
		231/2ए	निजी	शुष्क	1000	कासीनाथा मुदलियार, पुत्र स्व. चिन्नाप्पा मुदलियार, अरपक्कम
		232/2ए	निजी	शुष्क	1600	सुलमान, पुत्र मोहम्मदगीयक, अरपक्कम के. तामीखान, पुत्र कादारखाम, वेल्तोर
		234/2	निजी	मकान स्थल	144	1. सरोजा पत्नी सुब्रामणी, अरपक्कम
		234/3	निजी	मकान स्थल	133	1. पदमानाबन, 2. पालानी, 3. शंकर, 4. सापापथी, 5. दामोदरन, 6. सामपथ, 7. कानदान, पुत्र गोपाल चेट्टी, अरपक्कम
		234/4	निजी	मकान स्थल	152	1. गापाल, 2. जगन्नाथन, पुत्र मोनिचका गौडर, अरपक्कम.

	234/23	निजी	मकान स्थल	20	एस. पाखीवन, पुत्र सागादेवन, अरपक्कम
	234/24	निजी	मकान स्थल	64	1. बसन्था, पुत्री चिन्नाकुलानदाई 2. सारासवाथी, पत्नी स्व. चिन्नाकुलानदाई, अरपक्कम
	234/25	निजी	मकान स्थल	33	गोपाल, पुत्र राजी गौडर, अरपक्कम
	234/26	निजी	मकान स्थल	51	के.एम.सुब्रामणी, 2. के.एम.मणी, पुत्र मुरुकेसा गौडर, कीलमीन्नल.
	234/27	निजी	मकान स्थल	38	कंथामल, पत्नी वैकटेशन, अरपक्कम.
	234/28	निजी	मकान स्थल	20	गोविंदामल, पत्नी सागादेवन, अरपक्कम.
	234/29ए	निजी	मकान स्थल	50	राजेश्वरी, पत्नी नागराजन, अरपक्कम.
	234/30	निजी	मकान स्थल	86	अमरावती, पत्नी चिन्नापा गौडर, अरपक्कम.
	234/31	निजी	मकान स्थल	39	कन्नामल, पत्नी स्व. दरईसामी, अरपक्कम.
	234/33	निजी	मकान स्थल	110	देईवायानाईयामल, पत्नी स्व. शिवापेरुम्मन, अरपक्कम.
	234/34	निजी	मकान स्थल	132	जयारमण, पुत्र नारायणासामी, अरपक्कम
	234/36ए	निजी	मकान स्थल	31	वाल्लीयामल, पत्नी मुथुसामी, अरपक्कम
	234/61	निजी	मकान स्थल	49	के.लक्ष्मी, पत्नी स्व. कुप्पासामी, अरपक्कम
	488/1ए	निजी	मकान स्थल	48	पी.अरुमुगम, पुत्र पाराशुरामा गौडर, अरपक्कम
	488/2बी1	निजी	मकान स्थल	98	एम. मणी, पुत्र मुनिया गौडर, अरपक्कम, 2. सुब्रामणी, पुत्र सामी नेईक्कर, अरपक्कम
	488/3बी	निजी	मकान स्थल	127	एस.सुब्रामणी, पुत्रसामी नेईक्कर, अरपक्कम
	488/35ए	निजी	मकान स्थल	251	के.मणी, पुत्र कुप्पु गौडर, अरपक्कम
	488/36ए	निजी	मकान स्थल	47	एस.सरोजा पत्नी स्व. सेतु, अरपक्कम
	488/39	निजी	मकान स्थल	42	पी.मूर्ति, पुत्र स्व. परशुरामन, अरपक्कम
	488/40	निजी	मकान स्थल	27	डी. मारगाबंधु, पुत्र रामाजया मुदाली, अरपक्कम
	488/42	निजी	मकान स्थल	63	डी.वेलायुथाम चेट्टीयार, पुत्र अरुमुंगा चेट्टीयार, अरपक्कम.
	488/44	निजी	मकान स्थल	20	डी.मीनाक्षीमल, पत्नी स्व. देईवासीगामनी, अरपक्कम.
	488/45	निजी	मकान स्थल	36	एस.कृष्णन, पुत्र स्व. सुब्रामनीयन, अरपक्कम.
	488/46	निजी	मकान स्थल	75	एन.अरुमुगम, पुत्र नाटराजन, अरपक्कम.
	488/47	निजी	मकान स्थल	99	वेलायुथम चेट्टी, पुत्र अरुमुंगा चेट्टी, अरपक्कम.
	489/8	निजी	मकान स्थल	91	हुसैन बी पत्नी कासीमखान, अरपक्कम.
	489/22	निजी	मकान स्थल	76	1. कृष्णामाचारी, पुत्र जनीपति आचारी, 2. चान्दीरन, पुत्र मणीक्काचारी, 3. सुब्रामानईयाचारी, पुत्र मणीक्काचारी, अरपक्कम.
	489/23ए	निजी	मकान स्थल	79	एस.हुसैन साहेब, पुत्र छोटन साहेब, अरपक्कम.
	489/33	निजी	मकान स्थल	113	जी.इलुमालाई, पुत्र गोविंदराई, पुदुवासुर
	489/34	निजी	मकान स्थल	120	जी.इलुमालाई, पुत्र गोविंदराई, पुदुवासुर
	489/35ए	निजी	मकान स्थल	38	कन्नियाप्पन, पुत्र मुरुगेशन, अरपक्कम
	106बी/2ए	निजी	मकान स्थल	24	एस.मणीकृष्णन, पुत्र स्व. सोमासंदरम,

						अरपक्कम
		106बी/2बी	निजी	मकान स्थल	67	जे. मणीमैगालाई, पत्नी स्व. जयारमण, अरपक्कम
		106बी/2सी	निजी	मकान स्थल	60	एम. सेलवानायागी, पत्नी मुनीकृष्णन, अरपक्कम
		106बी/2डी	निजी	मकान स्थल	71	जी. इलुमालाई, पुत्र गोविंदाराजी, पुदुवासुर.
		106बी/2ई	निजी	मकान स्थल	16	इलुमालाई पुत्र गोविन्दाराज, पुदुवासुर थानीगाचालाम, पुत्र नैना मुदलियार, अरपक्कम.
		106बी/2एफ	निजी	मकान स्थल	62	एन. थानीगाचालम, पुत्र नैनाथा मुदाली, अरपक्कम.
		248/1ए	निजी	शुष्क	1030	1. नानानमाल, पत्नी सुब्रामणी 2. शिवा कुमार पुत्र पीदामबरम, मेलाकुप्पम.
		248/2बी1ए	निजी	शुष्क	1112	एम. नारायणासामी मुदाली, पुत्र स्व. मुथुसामी मुदाली, मेलाकुप्पम.
		248/2बी2ए	निजी	शुष्क	445	आर. मणी मुदालीयार, पुत्र रामासामी मुदाली, मेलाकुप्पम
		251/2बी1	निजी	शुष्क	2650	1. कैलाशन 2. रवि 3. आर. मणी, पुत्र रामासामी मुदाली, मेलाकुप्पम 4. कलाईमेगल साबा क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुप्पाथुर.
		252/3ए	निजी	शुष्क	2150	1. कमलापति पुत्र मुनीसामी चेट्टी, नंदीयालम 2. ए. सुब्रामणी मुदाली पुत्र अन्नासामी मुदाली, पुत्तुथाकु 3. कलाईमागल साबा क्षेत्रीय कार्यालय, थिरुप्पाथुर.
		264/1बी1	निजी	शुष्क	1150	डी. वासुदेवन, पुत्र रांगा मन्नार नायडू, वेल्लोर गणेशा मुदाली पुत्र चिन्नासामी मुदलियार, मेलाकुप्पम.
		254/3ए	निजी	शुष्क	2268	1. कन्नियाम्मल, पत्नी पांडुरंगम मेलमीनल. 2. इलुमालाई, पुत्र अप्पाकुट्टी, पुत्तुथाकु 3. वासुदेवन, पुत्र रागनामन्नार नायडू, वेल्लोर.
		261/3ए	निजी	शुष्क	13	चिन्ना खुलानदीयाम्मल, पत्नी स्व. गोविन्दन, अरपक्कम.
		260/1बी1	निजी	शुष्क	750	चिन्ना खुलानदीयाम्मल, पत्नी स्व. गोविन्दन, अरपक्कम.
		355/1ए2ए	निजी	शुष्क	1061	1. जी दामोदरन, पुत्र गोविंदन 2. रामादोस पुत्र सुब्रामणी 3. कांथाम्मल पत्नी सुब्रामणी, वेल्लोर
		355/1ए2बी	निजी	शुष्क	567	1. जी दामोदरन, पुत्र गोविंदन 2. रामादोस पुत्र सुब्रामणी 3. कांथाम्मल पत्नी सुब्रामणी, वेल्लोर
		358/1ए1	निजी	शुष्क	900	1. एस. रामादोस, पुत्र सुब्रामणी, वेल्लोर 2. खुशीद बेगम, वनियामवाडी
		358/1बी1	निजी	शुष्क	1129	डी. रशीदा बेगम, पत्नी नाईजारहान साहेब,

						वनियामवाडी
		358/2ए	निजी	शुष्क	2523	डी.रशीदा बेगम, पत्नी नाईजारहान साहेब, वनियामवाडी
		359/2ए	निजी	शुष्क	754	जी.साख्थीवेल, पुत्र एस.पी.गणेशन साथुवाचारी
		380/6डी2	निजी	मकान स्थल	200	1. पदमावती, पत्नी सुब्रामणी, अरपक्कम 2. शिवाकुमार, पुत्र वेलमुरुगन, वेल्लोर
		380/6ई1बी	निजी	मकान स्थल	348	1. लखनाकुमारी, पत्नी राजामानीवथीयार, अरपक्कम 2. शिवाकुमार, पुत्र स्व. वेलमुरुगन, वेल्लोर.
		380/6ई2बी	निजी	मकान स्थल	138	नाराशिम मंदीरी, पुत्र नागप्पा मंदीरी, मेलमीन्नल
		380/6एफ2	निजी	मकान स्थल	173	1. नाराशिम मंदीरी पुत्र नागप्पामंदीरी 2. लखना कुमारी पुत्र राजामणी 3. बेबी पत्नी रंगानाथन 4. पट्टाम्मल, पत्नी मुरुक्केशन 5. पदमावती, पत्नी सुब्रमणी, मेलमीन्नल
		380/6जी1बी	निजी	मकान स्थल	136	1. मुरुक्केशन पुत्र स्व. सुब्रमणी, मेलाकुप्पम 2. कमला, पत्नी पनीरसेलवम, वेलापादी
		380/6जी2बी	निजी	मकान स्थल	119	1. एम. श्रीनिवासन, पुत्र स्व. मुरुक्केशन 2. मणीवान्न, पुत्र स्व. मुरुक्केश मन्दीरी 3. नरसिंहा मन्दीरी, पुत्र नागापामन्दीरी, मेलमीन्नल
		380/6एच2	निजी	मकान स्थल	76	पी.मनोहारन, पुत्र पुणगावनम, मेलमीन्नल
		380/6आई2	निजी	मकान स्थल	48	1. गणेशन, पुत्र कामपुमन्दीरी, मेलमीन्नल
		380/6जे3बी	निजी	मकान स्थल	17	पी.सुन्दरशन पुत्र पट्टियापामन्दीरी, अरपक्कम
		380/8जी3	निजी	शुष्क	812	1. कुमार, पुत्र राजगोपाल मन्दीरी, पुत्तुथाकु. 2. पनीर सेलवी, पत्नी चिन्नकुट्टी 3. के. कारपागम, पत्नी मौथ 4. के.इलुमालाई, पुत्र स्व. कुप्पन, मेलमीन्नल
		361/2	निजी	शुष्क	300	आर.गणेशन, पुत्र स्व. राजगोपाल मन्दीरी, अरपक्कम
		362/35बी	निजी	मकान स्थल	42	ए.कुमारसामी, पुत्र स्व. अप्पादुराई, शिवारायापुरम
		362/36	निजी	मकान स्थल	183	पी.हरीकृष्णन, पुत्र स्व. पुन्नुसामी, शिवारायापुरम
		362/42बी	निजी	मकान स्थल	60	एम.पंजाली, पत्नी स्व. मुनीसामी, शिवारायापुरम
		362/43	निजी	मकान स्थल	262	एस. रानीयम्मल, पत्नी सुब्रामनी, शिवारायापुरम
		364/23बी	निजी	मकान स्थल	75	बी.रमेश, पुत्र स्व. बालाकृष्णन, शिवारायापुरम
		364/30बी	निजी	मकान स्थल	21	ए.कुमारसामी, पुत्र स्व. अप्पादुराई, शिवारायापुरम
		105/1ए2	निजी	शुष्क	495	1. औरमुगा मुदलियार, पुत्र देशिंग मुदलियार 2. रघुनाथन, पुत्र वीरासामी, मेलाकुप्पम 3. इकामबरा चेट्टी 4. पुनदुरंगा चेट्टी, पुत्र चोकलिंगा चेट्टी, 5. चानदीरन पुत्र इलापचेट्टी,

						6. रामाकृष्णन, पुत्र नरसिम्माचेट्टी, अरपक्कम
		105/1बी2	निजी	शुष्क	40	ए.आर.मणी, पुत्र सामासामी, अरपक्कम
		105/1सी2	निजी	शुष्क	2	रामाकृष्णन, पुत्र नरसिम्माचेट्टी, अरपक्कम
		105/2बी	निजी	शुष्क	80	1. रवि पुत्र दामोदराचेट्टी, 2. सेनगुथुवन, पुत्र दामोदरा चेट्टी, अरपक्कम
		80/4ए2	निजी	शुष्क	100	1. अरुमुंगम, पुत्र नटराजन, अरपक्कम 2. वीवासाया संगकाटीदम, अरपक्कम
		90/2ए2	निजी	शुष्क	200	1. जगन्नाथ चेट्टी, पुत्र नारायण चेट्टी, 2. षण्मुगा चेट्टी, पुत्र देईवासीगामनी चेट्टी, 3. इकामबरा चेट्टी, पुत्र नारायण चेट्टी, 4. काशीचेट्टी, पुत्र स्व. सदासिवा चेट्टी, 5. दक्खनामूर्ति, पुत्र स्व. श्रीनिवासाचेट्टी, अरपक्कम.
		90/2बी2	निजी	शुष्क	180	1. चिन्नाराजी, पुत्र कृष्ण 2. रविचानदीरन, पुत्र मरियप्पन 3. दुराईसामी, पुत्र रामासामी, अरपक्कम.
		90/2सी2	निजी	शुष्क	440	1. चिन्नाराजी, पुत्र कृष्ण 2. रविचानदीरन, पुत्र मरियप्पन 3. दुराईसामी, पुत्र रामासामी, अरपक्कम.
		102/1ए2बी	निजी	मकान स्थल	100	ए.पंडियण, पुत्र स्व. आनन्दन, अरपक्कम.
		102/1बी2	निजी	मकान स्थल	100	1. रवि, 2. सेनगुथुवन, पुत्र दामोदर चेट्टी, अरपक्कम, 3. पुन्नाम्मल, पत्नी स्व. रासामुदलियार, इकामबारानेल्लोर.
		102/5बी	निजी	मकान स्थल	125	1. सुब्रया मुदाली, पुत्र स्व. तिरुवैकटा मुदाली, 2. ए.डी. शेखर, पुत्र दुराईसामी मुदाली, अरपक्कम.
		259/1ए2	निजी	शुष्क	466	1. बी.जार्ज पुत्र स्व. बकीयानाथन, शिवराजपुरम. 2. एम.कुमार पुत्र मुन्साामी, अरपक्कम.
		259/1बी2	निजी	शुष्क	400	1. बी.जार्ज पुत्र स्व. बकीयानाथन, शिवराजपुरम. 2. एम.कुमार पुत्र मुन्साामी, अरपक्कम.
4	नन्दीयालम	177/1बी2	निजी	नम	50	रागमादुल्ला पुत्र शेख हैदर बाबु पुत्र बाशा साहिब, थामीन, पुत्र दासताकीर, रत्नागिरी
		177/2बी	निजी	नम	50	रागमादुल्ला पुत्र शेख हैदर बाबु पुत्र बाशा साहिब, थामीन, पुत्र दासताकीर, रत्नागिरी
		177/1डी	निजी	नम	700	रागमादुल्ला पुत्र शेख हैदर बाबु पुत्र बाशा साहिब, थामीन, पुत्र दासताकीर, रत्नागिरी
		177/1ए2	निजी	नम	1335	रागमादुल्ला पुत्र शेख हैदर बाबु पुत्र बाशा साहिब, थामीन, पुत्र दासताकीर, रत्नागिरी
		173/2	निजी	शुष्क	1555	1. राजा अहमद, पुत्र मोहम्मद इसमाइल 2. नशीमा बेगम, पत्नी खारनमिश्र, 3. आयशा बेगम, पत्नी अब्दुल वाजिद 4. अगीमुनिशा पत्नी निजार अहमद 5. जगारा जामिल, पुत्र रफी अहमद.

						मेलविशारम.
		174/2	निजी	शुष्क	450	1. राजा अहमद, पुत्र मोहम्मद इसमाइल 2. नशीमा बेगम, पत्नी खारनमिश्र, 3. आयशा बेगम, पत्नी अब्दुल वाजिद 4. अगीमुनिशा पत्नी निजार अहमद 5. जगारा जामिल, पुत्र रफी अहमद, मेलविशारम.
		167/2	निजी	शुष्क	3097	वी.एस.नाथन, पुत्र वेल्डईया चेट्टी, वेल्डोर.
		158/1बी	निजी	शुष्क	2800	बाबु सैमुएल, पुत्र मौसेस, वेल्डोर.
		156/2	निजी	शुष्क	2822	एन.सुरेश, पुत्र वी.एस.नाथन, वेल्डोर
		155/1बी	निजी	शुष्क	955	वी.गजेन्दीरमेन्, पुत्र भूपालन, साथुवाचारी
		155/2बी	निजी	शुष्क	784	बी.वेन्दार वेन्दान, पुत्र भूपालन, साथुवाचारी
		155/3बी	निजी	शुष्क	690	बी.राजानन्दन, पुत्र भूपालन, साथुवाचारी
		154/2	निजी	शुष्क	1712	सादयप्पा मुदलियार, पुत्र मुन्नीसामी मुदलियार, नन्दीयल्लम.
		145/1बी	निजी	शुष्क	705	चिन्नारजी, पुत्र वाल्लईगौडर, सागादेवन, पुत्र चिन्नाराज, मणी, पुत्र चिन्नाराज, कन्निगापुरम.
		145/2बी	निजी	शुष्क	685	चिन्नारजी, पुत्र वाल्लईगौडर, सागादेवन, पुत्र चिन्नाराज, मणी, पुत्र चिन्नाराज, कन्निगापुरम.
		145/3बी	निजी	शुष्क	1155	चिन्नारजी, पुत्र वाल्लईगौडर, सागादेवन, पुत्र चिन्नाराज, मणी, पुत्र चिन्नाराज, कन्निगापुरम.
		144/2बी	निजी	शुष्क	4035	चिन्नारजी, पुत्र वाल्लईगौडर, सागादेवन, पुत्र चिन्नाराज, मणी, पुत्र चिन्नाराज, कन्निगापुरम.
		144/4बी	निजी	शुष्क	2000	चिन्नारजी, पुत्र वाल्लईगौडर, सागादेवन, पुत्र चिन्नाराज, मणी, पुत्र चिन्नाराज, कन्निगापुरम.
		100/2	निजी	शुष्क	975	चिन्नारजी, पुत्र वाल्लईगौडर, सागादेवन, पुत्र चिन्नाराज, मणी, पुत्र चिन्नाराज, कन्निगापुरम.
		99/2ए	निजी	शुष्क	1250	थंगावेल, पुत्र कन्नियन, नन्दीयल्लम.
		98/1ए	निजी	शुष्क	390	1. अब्दुल सलेम, पुत्र इसमाइल बाशा, 2. थंगावेली, पुत्र कन्नियन, 3. मोहन पुत्र कन्नियन, नन्दीयल्लम.
		98/3ए1	निजी	शुष्क	1010	1. मोहन पुत्र कन्नियन, 2. अब्दुल सलेम, पुत्र इसमाइल 3. वाटचियम्मल, पत्नी कृष्णन, नन्दीयल्लम.
		98/3बी1	निजी	शुष्क	520	1. मोहन पुत्र कन्नियन, 2. अब्दुल सलेम, पुत्र इसमाइल 3. वाटचियम्मल, पत्नी कृष्णन, नन्दीयल्लम.
		98/6बी	निजी	शुष्क	1700	तिरुमति इंदिरा, पत्नी धर्मचंद, अरकोट.
		96/1ए	निजी	नम	400	तिरुमति इंदिरा, पत्नी धर्मचंद, अरकोट.
		97/1बी1	निजी	नम	1100	मदीनबी, पत्नी मोहम्मद शरीफ, मेलविशारम
		66/1ए	निजी	नम	340	अब्दुल जामील, पुत्र अब्दुल रशीद, मेलविशारम
		65/2बी1	निजी	नम	1100	अब्दुल जामील, पुत्र अब्दुल रशीद, मेलविशारम
		64/2बी	निजी	नम	150	वी.एस.नाथन, पुत्र वेल्डईयन चेट्टी, वेल्डोर.



	63/1बी1	निजी	नम	731	वी.एस.नाथन, पुत्र वेल्सईयन चेट्टी, वेल्सोर.
	62/2ए	निजी	नम	1548	वी.एस.नाथन, पुत्र वेल्सईयन चेट्टी, वेल्सोर.
	53/1बी1	निजी	नम	1512	अब्दुल अजीस, पुत्र टी.एम.अब्दुल काबुर, मेलविशारम.
	52/2बी1	निजी	नम	614	अब्दुल अजीस, पुत्र टी.एम.अब्दुल काबुर, मेलविशारम.
	52/3बी1	निजी	नम	1383	अब्दुल अजीस, पुत्र टी.एम.अब्दुल काबुर, मेलविशारम.
	51/1ए	निजी	नम	1736	अब्दुल अजीस, पुत्र टी.एम.अब्दुल काबुर, मेलविशारम.
	46/1ए	निजी	नम	1904	1. एम.रमेश पुत्र मुनीसामी 2. थंगादुरई पुत्र मुनीसामी 3. समपत पुत्र मुनीसामी, नन्दीयल्लम.
	25/2	निजी	नम	2000	पादल बाई, पत्नी समपतु राजी, धर्मचंद, पुत्र समपत राजी, अरकोट.
	24/2	निजी	शुष्क	1015	पादल बाई, पत्नी समपतु राजी, धर्मचंद, पुत्र समपत राजी, अरकोट.
	23/1बी	निजी	शुष्क	2184	गजेन्दीरन पुत्र नाथमुनी, नन्दीयल्लम.
	23/2बी	निजी	शुष्क	1900	गजेन्दीरन पुत्र नाथमुनी, नन्दीयल्लम.
	23/3ए1बी	निजी	शुष्क	1412	1. सईद कयलजार पुत्र सायथ यासीम, मुलविशारम 2. अमेद साहब, पुत्र सईद यासीम, मेलविशारम 3. सुब्रमणी पुत्र मुनीवेल नेईकर, बंगलोर.
	23/3ए2बी	निजी	शुष्क	1600	सुब्रमणी पुत्र मुनीवेल नेईकर, बंगलोर.
	23/3ए3ए	निजी	शुष्क	550	अब्दुल जालेल, पुत्र ख़ादिर मोहिदीन, नन्दीयल्लम.
	23/3ए3बी	निजी	शुष्क	1350	सुब्रमणी पुत्र मुनीवेल नेईकर, बंगलोर.
	23/3ए3सी	निजी	शुष्क	1350	सुब्रमणी पुत्र मुनीवेल नेईकर, बंगलोर.
	7/1ए2	निजी	शुष्क	4	अंसरशरीफ पुत्र इसमाइल साबी, नन्दीयालम.
	7/1बी2	निजी	शुष्क	155	अंसरशरीफ पुत्र इसमाइल साबी, नन्दीयालम.
	6/1ए1बी	निजी	शुष्क	25	अंसरशरीफ पुत्र इसमाइल साबी, नन्दीयालम.
	6/1बी1बी	निजी	शुष्क	95	1. मुत्तु मेगुरुनिशा पत्नी नजान अहमद 2. साल्तानाबेगम पत्नी जाबल अहमद, 3. मोहम्मद शमीम पुत्र मोहम्मद असीम साहब, मेलविशारम.
	6/1ए3ए	निजी	शुष्क	1300	मोहम्मद शमीम पुत्र मोहम्मद असीम साहब, मेलविशारम.
	6/1बी3ए	निजी	शुष्क	860	मोहम्मद शमीम पुत्र मोहम्मद असीम साहब, मेलविशारम.
	334/1ए	निजी	शुष्क	500	मुरूसन, पुत्र विजयन, नन्दीयालम.
	334/3बी2ए	निजी	शुष्क	434	1. विजया सुन्दर, पुत्र मुनीसामी, नन्दीयल्लम. 2. ए.जामील बासा, पुत्र अब्दुल मलिक, नन्दीयालम.
	334/3सी2ए	निजी	शुष्क	279	लक्ष्मण पुत्र वीनायगम, नन्दीयालम.
	334/3ई1	निजी	शुष्क	226	बालारमन्, पुत्र रंगारम, नन्दीयालम. यासीम बानु पत्नी मोहम्मद राहामादुल्ला, मेलविशारम.
	334/3एफ1	निजी	शुष्क	327	1. चिन्नापेईयन, पुत्र मुनीसामी, नन्दीरी. 2. गिरीवासन, पुत्र मुनीसामी, नन्दीयालम.

		322/1बी1ए	निजी	शुष्क	630	1. मुरुकेशन, पुत्र विजयन, 2. नागामूर्ति, पुत्र वेंकटेशा पेरूमल, नन्दीयालम.
		322/1बी2ए	निजी	शुष्क	550	1. मुरुकेशन, पुत्र विजयन, नन्दीयालम. 2. नागामूर्ति, पुत्र वेंकटेशा पेरूमल, नन्दीयालम.
		322/3	निजी	शुष्क	475	1. मुरुकेशन, पुत्र विजयन, नन्दीयालम. 2. नागामूर्ति, पुत्र वेंकटेशा पेरूमल, नन्दीयालम.
		320/1ए	निजी	नम	300	1. मोहम्मद इसमाइल, 2. मोहम्मद इब्राहीम, 3. जागीर उशान, पुत्र बाशा साहब, मेलविशारम.
		320/2ए	निजी	नम	300	1. मोहम्मद इसमाइल, 2. मोहम्मद इब्राहीम, 3. जागीर उशान, पुत्र बाशा साहब, मेलविशारम.
		320/3ए1ए	निजी	नम	530	आरिश अहमद पुत्र के.ए. रशीद, मेलविशारम.
		320/3ए2ए	निजी	नम	115	आरिश अहमद पुत्र के.ए. रशीद, मेलविशारम.
		320/3ए3ए	निजी	नम	225	आरिश अहमद पुत्र के.ए. रशीद, मेलविशारम.
		320/3बी1	निजी	नम	470	आरिश अहमद पुत्र के.ए. रशीद, मेलविशारम.
		320/3सी1	निजी	नम	500	आरिश अहमद पुत्र के.ए. रशीद, मेलविशारम.
		293/2ए	निजी	नम	800	एम.जी.बालसुन्दरन, पुत्र गोपाला मुदाली, अरकोट
		292	निजी	नम	200	कोथानदन, पुत्र गोपाल मुदाली, नन्दीयालम एम.जी.बालसुन्दरन, पुत्र स्व. गोपाल, अरकोट.
		290/3ए	निजी	शुष्क	50	1. राजाशेखरन पुत्र स्व. गोपाल, नन्दीयालम. 2. एम.जी.बाला सुन्दरन, पुत्र गोपाल मुदाली, अरकोट. 3. जी.मणी, पुत्र गोपाल मालाकुप्पम.
		290/3बी2	निजी	शुष्क	40	1. राजाशेखरन पुत्र स्व. गोपाल, नन्दीयालम. 2. एम.जी.बाला सुन्दरन, पुत्र गोपाल मुदाली, अरकोट. 3. जी.मणी, पुत्र गोपाल मालाकुप्पम.
		290/3सी2	निजी	शुष्क	35	एम.जी.बालसुन्दरन, पुत्र गोपाला मुदाली, अरकोट
		290/4बी	निजी	शुष्क	315	एम.जी.बालसुन्दरन, पुत्र गोपाला मुदाली, अरकोट
		290/5ए2	निजी	शुष्क	120	एम.जी.बालसुन्दरन, पुत्र गोपाला मुदाली, अरकोट
		290/5बी	निजी	शुष्क	100	जी.मुथु, पुत्र गोपाल मुदाली, नन्दीयालम.
		290/6ए2	निजी	शुष्क	12	एम.जी.बालसुन्दरन, पुत्र गोपाला मन्दराई, अरकोट
		290/6बी1	निजी	शुष्क	182	एम.जी.बालसुन्दरन, पुत्र गोपाला मन्दराई, अरकोट

		290/6सी2	निजी	शुष्क	500	1. एम.जी.बाला सुन्दरन, पुत्र गोपाल मन्दराई, अरकोट. 2. मोहनाम्मल, पत्नी स्व. वेंकटेशन, मालाकुप्पम.
		289/2	निजी	शुष्क	70	1. राजाशेकरन, पुत्र स्व. गोपाल, नन्दीयालम. 2. एम.जी.बालुसुन्दरम, पुत्र गोपाल, अरकोट 3. एम.मणी, पुत्र गोपाल, मालाकुप्पम.
		288/2ए2	निजी	शुष्क	403	1. राजाशेकरन, पुत्र स्व. गोपाल, नन्दीयालम. 2. एम.जी.बालुसुन्दरम, पुत्र गोपाल, अरकोट
		288/3ए2	निजी	शुष्क	42	1. राजाकन्नन, पुत्र स्व. गोपाल, नन्दीयालम. 2. एम.जी.बालुसुन्दरम, पुत्र गोपाल, अरकोट
		287/2ए	निजी	शुष्क	50	1. राजाकन्नन, पुत्र स्व. गोपाल, नन्दीयालम. 2. एम.जी.बालुसुन्दरम, पुत्र गोपाल, अरकोट
		245/1ए2	निजी	नम	93	मोहम्मद जाबारुथीन, पुत्र स्व. अब्दुल शमीद, मेलविशारम.
		245/3ए2	निजी	नम	48	मोहम्मद जाबारुथीन, पुत्र स्व. अब्दुल शमीद, मेलविशारम.
		246/2ए2	निजी	नम	280	मोहम्मद जाबारुथीन, पुत्र स्व. अब्दुल शमीद, मेलविशारम.
		247/1बी	निजी	नम	100	मोहम्मद जाबारुथीन, पुत्र स्व. अब्दुल शमीद, मेलविशारम.
		242/2	निजी	शुष्क	295	मोहम्मद जाबारुथीन, पुत्र स्व. अब्दुल शमीद, मेलविशारम.
		237/1बी	निजी	शुष्क	582	मोहम्मद जाबारुथीन, पुत्र स्व. अब्दुल शमीद, मेलविशारम.
		237/2बी	निजी	शुष्क	350	मोहम्मद जाबारुथीन, पुत्र स्व. अब्दुल शमीद, मेलविशारम.
		235/3	निजी	शुष्क	2400	1. वी.शांथानी, पत्नी वेलु, अरानी 2. ए.साथीज कुमार, पुत्र अंबालगान, वेल्लोर 3. श्रीधर, पुत्र कृष्णा नायडू, नन्दीयालम 4. धर्मलिंगम, पुत्र मणीक्कम, वेल्लोर.
		191/1	निजी	शुष्क	850	धर्मचंद, पुत्र जवाहरलाल, वेल्लोर. अनीज अहमद, पुत्र अब्दुल रशीद, मेलविशारम.
		192/2	निजी	शुष्क	1252	धर्मचंद, पुत्र जवाहरलाल, वेल्लोर. अनीज अहमद, पुत्र अब्दुल रशीद, मेलविशारम.
		194/1	निजी	शुष्क	728	धर्मचंद, पुत्र जवाहरलाल, वेल्लोर. अनीज अहमद, पुत्र अब्दुल रशीद, मेलविशारम.
		187/1ए1	निजी	शुष्क	500	कन्ना गौंडर, पुत्र वीरासामी, नन्दीयालम.
		187/1बी1	निजी	शुष्क	300	गोविंदास्वामी, पुत्र वीरासामी, कीलमीनल.
		187/1सी1	निजी	शुष्क	100	1. दामोदरन, पुत्र सदयागौंडर, 2. एस.मणी, पुत्र सदया गौंडर, नन्दीयालम.
		187/2ए	निजी	शुष्क	500	1. दामोदरन, पुत्र सदयागौंडर, 2. एस.मणी, पुत्र सदया गौंडर, नन्दीयालम.
		187/3ए	निजी	शुष्क	300	1. दामोदरन, पुत्र सदयागौंडर

						2. एस.मणी, पुत्र सदया गौंडर, नन्दीयालम, 3. एस.सम्पत, पुत्र सदया गौंडर, नन्दीयालम, 4. रामलाल, पुत्र पन्नालाल, नन्दीयालम.
		187/4ए	निजी	शुष्क	300	एस.सम्पत, पुत्र के. सदया गौंडर, नन्दीयालम.
		187/5ए	निजी	शुष्क	300	जुबेदाबी, पत्नी इब्राहीम साहब, मेलविशारम.
		187/6ए	निजी	शुष्क	250	जुबेदाबी, पत्नी इब्राहीम साहब, मेलविशारम.
		187/7ए	निजी	शुष्क	400	जुबेदाबी, पत्नी इब्राहीम साहब, मेलविशारम.
		187/8ए	निजी	शुष्क	130	1. जुबेदाबी, पत्नी इब्राहीम साहब, मेलविशारम, 2. बी.कुमार, पुत्र वादीवेल, नन्दीयालम.
		187/9ए1	निजी	शुष्क	950	1. गोविंदासामी, पुत्र वारासामी, कीलमीनल, 2. पी.रामलाल, पुत्र पी.पन्नालाल, वेल्लोर.
		187/9बी1	निजी	शुष्क	950	एम.तुलासी मुदलियार, पुत्र स्व. मुरुगोसा मुदलियार, नन्दीयालम.
		189/1	निजी	शुष्क	1400	बी.कुमार, पुत्र वादीवेल, नन्दीयालम.
		188/1	निजी	शुष्क	350	बी.कुमार, पुत्र वादीवेल, नन्दीयालम.
		183/1बी1	निजी	शुष्क	350	1. मुनीसामी, पुत्र गणेशन 2. अन्नामलाई, पुत्र कृष्ण 3. बाबु कृष्ण, पुत्र थंगावेल 4. बुनुमथी पत्नी मणी 5. मणिक्कम, पुत्र थंगावेल 6. राजाम्मल, पत्नी पारकुनन 7. चिन्नपा पुत्र मुनीसामी, नन्दीयालम.
		183/1बी2	निजी	शुष्क	450	1. गोपाल नायडू, पुत्र गुबेन्द्र नायडू, 2. जी.कोथांडन, पुत्र गोविंदाराजी, 3. थानालक्ष्मी, पत्नी अन्नामलाई, थेन्नानन्दीयालम.
		183/1बी3	निजी	शुष्क	160	रविचन्द्रण, पुत्र सुब्रामणी, नन्दीयालम.
		183/1बी4	निजी	मकान स्थल	170	1. दामोदरम, पुत्र चन्द्रिका महादेवन 2. थुलासीदरन, पुत्र चन्द्रिका माधवन, नन्दीयालम.
		183/1बी5	निजी	मकान स्थल	280	1. दामोदरम, 2. थुलासीदरन, 3. जयपाल, 4. भूपालन, 5. शेलवाराज, पुत्र चान्दीरा महादेवन, नन्दीयालम.
		183/1बी6	निजी	मकान स्थल	90	घनलक्ष्मी, पत्नी अन्नामलाई, नन्दीयालम.
		183/1बी7	निजी	मकान स्थल	190	1. लोकेश्वरी, पत्नी वर्धाराज, मनकुप्पम, 2. वर्धाराज मुदाली, पुत्र थानीगाचालम, नन्दीयालम.
		183/1बी8	निजी	मकान स्थल	55	राजाम्मल, पत्नी पारकुनाम, नन्दीयालम.
		183/1बी9	निजी	मकान स्थल	41	तिरुमति भवानी पत्नी, मणी, नन्दीयालम.
		183/1बी10	निजी	मकान स्थल	20	तिरुमति भवानी पत्नी, मणी, नन्दीयालम.
		183/1बी11	निजी	शुष्क	20	चिन्नपा गौंडर, पुत्र मुनीसामी, नन्दीयालम.
		183/1बी12	निजी	मकान स्थल	61	1. मुनीसामी, पुत्र गणेश गौंडर, नन्दीयालम.
		183/1बी13	निजी	मकान स्थल	71	चिन्नपा गौंडर, पुत्र स्व. मुनीसामी, नन्दीयालम.
		183/1बी15	निजी	मकान स्थल	168	1. चिन्नपा गौंडर, पुत्र स्व. मुनीसामी,

						2. लक्ष्मी पत्नी अन्नामलाई, 3. अन्नामलाई, पत्नी कृष्णन, नन्दीयालम.
		183/1बी16	निजी	मकान स्थल	72	टी.मणिकम्, पुत्र थंगावेल नटार, नन्दीयालम.
		183/1बी17	निजी	मकान स्थल	63	बालाकृष्णन, पुत्र थंगावेल नटार, नन्दीयालम.
		183/1बी18	निजी	मकान स्थल	177	सी.भूपालन, पुत्र चन्दीरा महादेवन, नन्दीयालम.
		183/1बी19	निजी	मकान स्थल	38	1. आर.ईश्वरप्पन, पुत्र स्व. राजी नेईकर, अरकोट 2. बाबु पुत्र कानन, माथांगल मुट्टुर
		183/1बी20	निजी	मकान स्थल	20	1. कन्ना पत्नी वीनायंगम, 2. गोपाल पुत्र स्व. रंगासामी, नन्दीयालम.
		183/1बी78	निजी	मकान स्थल	88	गोपालसामी, पुत्र चिन्नासामी, नन्दीयालम.
		183/1बी79	निजी	मकान स्थल	177	1. तिरुमति एम.पुनीथा पत्नी स्व. मनोहरन, 2. के. घनपाल, पुत्र कृष्णन, नन्दीयालम.
		181/2बी1	निजी	शुष्क	1200	के.महालिंगम, पुत्र केशवा मुदलियार, मालाकुप्पम.
		181/2सी1ए	निजी	शुष्क	980	मुनीसामी, पुत्र रामासामी, नन्दीयालम.
		180/2ए	निजी	शुष्क	1920	1. रांगामुदल्लाह पुत्र शास्त्रीदेर, 2. बाबु पुत्र बाशा साहिब, 3. डी.धामीम पुत्र थासथागीर, रत्नागिरि.
		179/1ए	निजी	शुष्क	405	कुप्पाम्मल, पत्नी थंगाराज, नन्दीयालम.
		179/2ए	निजी	शुष्क	140	चिन्नापुन्नु पत्नी पेरुम्मल, नन्दीयालम.
		430/3	निजी	शुष्क	1000	भूमिधारन, वेलु पुत्र भीमा गौडर, कनिगापुरम.
		234/3बी	निजी	मकान स्थल	148	कार्तिकेयन, पुत्र सुब्रमणी, मुनीराथीनम, पुत्र मनु शिवकुमार, पुत्र सुब्रमणी गोपाल पुत्र कन्नईयन, वैकटापति, पुत्र वैकटाचालापिल्लई, नन्दीयालम.
		234/3सी	निजी	मकान स्थल	1791	कार्तिकेयन, पुत्र सुब्रमणी, मुनीराथीनम, पुत्र मनु शिवकुमार, पुत्र सुब्रमणी गोपाल पुत्र कन्नईयन, वैकटापति, पुत्र वैकटाचालापिल्लई, नन्दीयालम.
		234/3डी	निजी	मकान स्थल	280	कार्तिकेयन, पुत्र सुब्रमणी, मुनीराथीनम, पुत्र मनु शिवकुमार, पुत्र सुब्रमणी गोपाल पुत्र कन्नईयन, वैकटापति, पुत्र वैकटाचालापिल्लई, नन्दीयालम.
		5/3बी2	निजी	शुष्क	15	सालतान पुत्र सईद युसुफ, कुप्पन पुत्र सीगारी, मेलविशारम.
		5/3सी1बी	निजी	शुष्क	200	अब्दुल वाजिद पुत्र अब्दुल वाजिद, मेलविशारम.
5	वेपूर	10/2	निजी	नम	430	वेपूर मक्खान मोस्क.
		12/1बी	निजी	नम	612	हुसैन राजा, वेपूर
		29/1बी	निजी	नम	850	डी.भास्करन, पुत्र एन. देवराजी मुदलियार, अरकोट
		69/3ए2	निजी	नम	1785	तिरुमति चोक्कुवाई अम्मल, पत्नी कानन, अरकोट.
		67/1बी	निजी	नम	1320	तिरुमति जानाजियाम्मल, पत्नी स्व. लीला विनोथन, अरकोट.
		65/3ए2	निजी	नम	120	सी.साखी, पुत्र एन.चिन्नापट्टु, नवलपुर.
		64/1ए2	निजी	नम	191	एस.कानन, पुत्र सिंगारा नेईकर, अरकोट.

		64/2ए2	निजी	नम	594	1. सी. सास्थी, पुत्र एन. चिन्नपट्टु, नवलपुर. 2. कन्नियाम्मल पत्नी स्व. सुब्रामणी, वेपूर.
		63/1बी	निजी	नम	150	एस. कानन, पुत्र सिंगारा नेईकर, अरकोट.
		62/1बी	निजी	नम	150	तिरुमति चोक्कुवाईयम्मल, पत्नी कानन, अरकोट.
		62/2ए2	निजी	नम	250	एस. कानन, पुत्र सिंगारा नेईकर, अरकोट.
		60/1ए2	निजी	नम	196	ए. एन. शंकर, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट.
		60/2ए2	निजी	नम	80	ए. एन. शंकर, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर
		60/3ए2	निजी	नम	67	1. ए. एन. गणेशन, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट. 2. चोक्कुवाईयम्मल, पत्नी कानन, अरकोट.
		60/4ए1बी	निजी	नम	40	1. ए. एन. गणेशन, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट. 2. चोक्कुवाईयम्मल, पत्नी कानन, अरकोट.
		60/4ए2बी	निजी	नम	89	एफ. टी. जोसेफ, पुत्र के. एफ. थॉमस, अरकोट
		59/1ए2	निजी	नम	50	ए. एन. सेलवम, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट.
		59/1बी2	निजी	नम	48	ए. एन. सेलवम, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट.
		59/1सी2	निजी	नम	41	ए. एन. सेलवम, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट.
		58/1ए2	निजी	नम	290	नुर अहमद, पुत्र के. शकबाशा साहब, रानीपेट
		58/1बी2	निजी	नम	312	ए. एन. शंकर, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट.
		153/2ए2	निजी	नम	285	तिरुमति विशालाकशीयम्मल, पत्नी कुमारसामी, वेपूर.
		135/1बी	निजी	नम	364	नुर अहमद, पुत्र के. शकबाशा साहब, रानीपेट
		134/1बी	निजी	नम	366	नुर अहमद, पुत्र के. शकबाशा साहब, रानीपेट
		133/2बी	निजी	नम	155	1. मोहम्मद इब्राहीम, पुत्र मोहम्मद असीम साहब, मेलविशारम. 2. नुर अहमद, पुत्र के. शकबाशा, रानीपेट.
		137/2ए1	निजी	नम	400	तिरुमति वी. सांथा, पत्नी स्व. वाराथन, वेपूर.
		137/2बी1	निजी	नम	400	एम. मोहम्मद इब्राहीम साहब, पुत्र मोहम्मद असीम साहब, मेलविशारम.
		132/2	निजी	नम	600	सी. सम्पत, पुत्र चिन्नप्पा गौंडर, वेपूर.
		127/3बी	निजी	नम	265	सी. सम्पत, पुत्र चिन्नप्पा गौंडर, वेपूर.
		130/1बी	निजी	नम	375	जी. मोहम्मद कलीमुल्ला, पुत्र अब्दुल लतीफ साहब, मेलविशारम.
		150/2	निजी	नम	440	तिरुमति पंजालाई, पत्नी स्व. वैकटाचालम मुदलियार, वेपूर.
		151/1बी	निजी	नम	400	डी. के. जयाकुमारी, पुत्री स्व. कुप्पासामी मुदलियार, वेल्डोर.
		154/1बी	निजी	नम	400	तिरुमति अमृताम्मल, पत्नी स्व. सुन्दरम नेईकर, वेपूर.
		155/1बी	निजी	नम	400	तिरुमति अमृताम्मल, पत्नी स्व. सुन्दरम नेईकर, वेपूर.
		159/1ए1बी	निजी	नम	50	ए. एन. सर्वानन, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट.
		159/1ए2बी	निजी	नम	100	ए. एन. सेलवन, पुत्र ए. के. नटराजा नेईकर, अरकोट.

	159/1ए3बी	निजी	नम	100	डी.वेकटेश्वर कोथी, पुत्र सुब्रमण्या नेईकर, वेप्पुर.
	159/2ए2	निजी	नम	150	तिरुमति अमृताम्मल, पत्नी स्व. सुन्दरम नेईकर, वेप्पुर.
	161/1ए2	निजी	नम	300	ए.एन.सर्वानन, पुत्र ए.के.नटराजा नेईकर, अरकोट.
	161/2ए2	निजी	नम	100	ए.एन.सर्वानन, पुत्र ए.के.नटराजा नेईकर, अरकोट.
	161/3ए2	निजी	नम	150	ए.एन.सर्वानन, पुत्र ए.के.नटराजा नेईकर, अरकोट.
	212/2ए	निजी	शुष्क	110	1. जीनाथ बेगम, पत्नी मोहम्मद इब्राहीम, मेलविशारम. 2. जयावेल, पुत्र मुनीसामी नेईकर, वेप्पुर.
	215/1ए1	निजी	शुष्क	180	1. एम.जयावेल, पुत्र मुनीसामी नेईकर, वेप्पुर. 2. तिरुमति मालार, पत्नी वासुदेवन, बंगलोर.
	215/1ए3	निजी	शुष्क	230	1. एम.जयावेल, पुत्र मुनीसामी नेईकर, वेप्पुर. 2. तिरुमति मालार, पत्नी वासुदेवन, बंगलोर.
	215/1बी2	निजी	शुष्क	85	के.रंगानायागी, पत्नी स्व. सिंगाराम, वेप्पुर.
	214/1बी1बी	निजी	नम	180	1. जयावेल, पुत्र मुनीसामी नेईकर, वेप्पुर. 2. रंगानायागी पत्नी स्व. सिंगाराम, वेप्पुर.
	214/1बी2बी	निजी	नम	160	तिरुमति अलीईरानी, पत्नी पार्थीवन, वेप्पुर.
	163/1बी	निजी	नम	200	तिरुमति गजालक्ष्मी, पत्नी एन.षण्मुगम, रासाथुपुरम.
	223/1बी	निजी	नम	300	ए.एस.मुरलीधरन, पुत्र श्रीरामुलु, वेप्पुर.
	225/1बी	निजी	नम	400	ए.के.नटराजन, पुत्र ए.वी.कुप्पुसामी नेईकर, अरकोट.

[फा. सं. भाराराप्रा/13011/46-II(3 डी)/पीआई-2002]

एन. के. सिन्हा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2003

**S.O. 72(E).**—WHEREAS, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 263 (E), dated the 28<sup>th</sup> February 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of four-laning of (Krishnagiri – Ranipet Section) of National Highway No.46 between Arapakkam to Veppur village (Km 127/450 to Km 139/950) in Walajah Taluk, Vellore District in the State of Tamil Nadu;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW, therefore, upon receipt of the said report, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the lands specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.



## SCHEDULE

## Brief Description of land

DISTRICT : VELLORE

TALUK : WALAJAH

Sl. No	Village Name	Survey Number	Type of the land	Nature Of Land	Area of the Land in Sq.mtr.	Name of the Owner
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Melvis haram	7/4A2	Private	Wet	400	N. Rajandiran, S/o. Natarajan, Melvisharam
		9/1B	Private	Wet	30	1. Salimabee W/O. Mohamed Esak, Melvisharam 2. Settu S/o. Veerasamy, Melvisharam.
		9/2A2	Private	Wet	40	1. Settu S/o. Veerasamy, Kilvisharam 2. N. Rajandiran, S/o. Natarajan Kilvisharam 3. Amsa W/o. Munisamy, Kilvisharam
		9/4B	Private	Wet	50	1. N. Rajendiran, S/o. Natarajan. Kilvisharam, 2. Settu S/o. Veerasamy Kilvisharam
		9/5B	Private	Wet	650	1. Sahira bee, W/o. Late Akharusain Melvisharam., 2. N. Rajandiran, S/o. Natarajan, Kilvisharam.
		21/1	Private	Wet	100	1. Panjalai, W/O. Natarajan, Kilvisharam 2. Jayanthi W/o. Amirthalingam. 3. Abdul Ragaman, S/o. Abdul Wakab, Melvisharam, 4. Tajiunisha, W/o. Abdul Ragaman, Melvisharam.
		22/1B	Private	Wet	261	1. Panjalai W/O. Natarajan, Kilvisharam 2. Jayanthi, W/o. Amirthalingam, Kilvisharam.
		23/1B	Private	Wet	170	1. Panjalai W/O. Natarajan, Kilvisharam 2. Jayanthi, W/o. Amirthalingam, Kilvisharam.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		26/3A2	Private	Wet	506	1. V.M. Anwarulla, S/o. late Authaulla, Melvisharam. 2. V.M. Rizwanulla, S/o. Late Authaulla, Melvihsaram.
		26/4B	Private	Wet	446	1. V.M. Anwarulla, S/o. late Authaulla, Melvisharam. 2. V.M. Rizwarulla, S/o. Late Authaulla, Melvihsaram.
		26/5B	Private	Wet	551	1. V.M. Anwarulla, S/o. late Authaulla, Melvisharam. 2. V.M. Rizwarulla, S/o. Late Authaulla, Melvihsaram.
		30/4B	Private	Wet	20	1. V.M. Anwarulla, S/o. late Authaulla, Melvisharam. 2. V.M. Rizwarulla, S/o. Late Authalla, Melvihsaram.
		30/5B	Private	Wet	23	1. V.M. Anwarulla, S/o. late Authaulla, Melvisharam. 2. V.M. Rizwarulla, S/o. Late Authalla, Melvihsaram.
		30/6B	Private	Wet	39	1. V.M. Anwarulla, S/o. late Authaulla, Melvisharam. 2. V.M. Rizwarulla, S/o. Late Authalla, Melvihsaram.
		30/7B	Private	Wet	62	1. V.M. Anwarulla, S/o. late Authaulla, Melvisharam. 2. V.M. Rizwarulla, S/o. Late Authalla, Melvihsaram.
		30/8A	Private	Wet	300	1. Salaudeen, W/o Jamaludeen Melvisharam 2. Nasirabegam, W/o Late Athbasha Melvisharam 3. Anwarulla S/o Athulla Melvisharam 4. R.K. Athhasha S/o. R.K. Babu Melvisharam
		33/1B	Private	Wet	643	T. Pagirathiyammal W/o Harideyan Melvisharam.
		34/1A2	Private	Wet	526	1. Aslam S/o. Nazeerbasha, Peranampattu 2. Tajiunnisha W/o. Abdul Ragamam Kilvisharam.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		44/1A1	Private	Wet	150	1. Madinabi W/o Abdul Azees – Melvisharam. 2. Howhabi W/o. Abdul Sukoor – Melvisharam 3. Ragida Begam W/o. Abdul Kadar Melvisharam. 4. Aslam S/o. Nazeerasa, Melvisharam.
		44/1A3 A	Private	Wet	600	1. Madinahi W/o Abdul Azees – Melvisharam. 2. Howhabi W/o. Abdul Sukoor – Melvisharam 3. Ragida Begam W/o. Abdul Kadar – Melvisharam. 4. Aslam S/o. Nazeer basha, Melvisharam.
		44/1A2	Private	Wet	100	Muthu Megajamin W/o. Abdul Athil – Melvisharam.
		44/1A4	Private	Wet	150	Rasidabegam S/o. Abdul Kadar – Melvisharam.
		45/2A2	Private	Wet	86	1. Muthu Megar jamin W/o. Abdul Athil 2. Madinahee W/o. Abdul Azees 3. Sinmera Asrappunnisa W/o Abdul Basha, 4. Kathi Jabee W/o. Abdul Azees, Melvisharam
		45/2A3	Private	Wet	31	1. Muthu Megar jamin W/o. Abdul Athil 2. Madinahee W/o. Abdul Azees 3. Sinmera Asrappunnisa W/o Abdul Basha, 4. Kathi Jabee W/o. Abdul Azees, Melvisharam
		45/2B2	Private	Wet	38	Muthu Megar jamin W/o. Abdul Athil Melvisharam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		46/1A2	Private	Wet	33	1. Thilraspathi Mabee, W/o. Mohamed Anwar, Dharmapuri 2. Jaumulabeen, S/o. Samed Sayab, Melvisharam, 3. Mohammed Yusan, S/o. Mohamed Abdulla, 4. Mohammed Anwar S/o. Andul Kani, 5. Abdul Rahman, S/o. Abdul Wakab, Melvisharam
		46/2B2	Private	Wet	045	Howharbee W/o. Abdul Sukar, Melvisharam
		46/1F2	Private	Wet	102	1. Aysa Basha, S/o. Mohammed Basha, Melvisharam 2. Tajimunnisa, W/o. Abdul Rahman, Melvisharam
		46/1G2	Private	Wet	83	Abdul Rahaman, S/o. Abdul Wahab, Melvisharam
		72/1	Private	Wet	100	Mohamed Ayyab, S/o. Late. Ahamed Basha, Melvisharam
		84/1A2	Private	Wet	196	1. T.A.Abdul Salem, S/o. Late. Abdyul Wahab, 2. Vellikan Asmabegam S/o. Bakthini Abdul Jamil, 3. Mohammed Eliyas S/o. Mohamed Ibrahim, 4. Mohammed Nagees S/o. Abdul Azees, Melvisharam
		84/1B2	Private	Wet	78	Vellikan Asmabegam, W/o. Bakthini Abdul Jamil, Melvisharam
		85/1A2	Private	Wet	35	Tmt. Megarunisha, W/o. Late. Ahamed Basha, Melvisharam
		85/2A2	Private	Wet	142	Mohammed Ayyab, S/o. Late. Ahamed Basha, Melvisharam
		85/3A2	Private	Wet	119	Mohammed Ayyab S/o. Late. Ahamed Basha, Melvisharam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		87/1A2	Private	Wet	40	Tmt. Megarunnisha, W/o. Late. Ahamed Basha, Melvisharam
		88/2A	Private	Wet	100	Vallikan Asma Begam W/o. Abdul Jamil, Melvisharam.
		88/3A2	Private	Wet	70	Tmt. Jubedabi W/o. Nazeebasha Perambur
		93/1A2	Private	Wet	236	Tmt. Megarunnisha, W/o. Late. Ahamed Basha, Melvisharam
		94/1B	Private	Wet	235	Abdul Kuduss S/o. Abdul Azees, Melvisharam
		95/1B	Private	Wet	285	1. Jagir banu, W/o. Shahir Ahamed 2. Mohamed Mullah, S/o. Mohammed Akbar 3. Thilgath Begam, W/o. Sulaiman, 4. Abdul Kuthus, S/o. Abdul Azees, Melvisharam
		96/3B	Private	Wet	4	Tmt. Azum, W/o. S.M. Usman Sayab, Melvisharam
		96/4B	Private	Wet	92	1. S. Almasgowsar, S/o. Usain Ahamed 2. M.Ajum, W/o. S.M. Usman Sayab, Melvisharam
		104/1A2	Private	Wet	61	M.M.D. Sameem, S/o. Mohamed Asim, Melvisharam
		106/1A2	Private	Wet	405	M.M.D. Sameem, S/o. Mohamed Asim, Melvisharam
		106/2A2	Private	Wet	214	1. Jagir banu, W/o. Shahir Ahamed 2. Mohamed Mullah, S/o. Mohammed Akbar 3. Thilsath Begam, W/o. Sulaiman, 4. Abdul Kuthus, S/o. Abdul Azees, Melvisharam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		127/1A2	Private	Wet	70	1. Raganabegam, W/o. Ibrahim. 2. Amirunnisha, W/o. Kabedeer Ragaman, 3. Beranabegam, W/o. Salaudeen, 4. Savana W/o. Emayadulla. 5. Salaudeen S/o. Late. Abdulla, Melvisharam
		128/2A2	Private	Wet	324	Arivayagan, (Darmakartha), Eswaran Koil, Melvisharam
		130/2	Private	Wet	175	1. Rajenabegam, W/o. Ibrahim. 2. Amirunnisha, W/o. Kabedeer Ragaman, 3. Beranabegam, W/o. Salaudeen, 4. Savana W/o. Emayadulla, 5. Salaudeen S/o. Late. Abdulla, Melvisharam
		138/1A	Private	Wet	100	Thausheep Ahmed, S/o. Althap Ahamed, Melvisharam
		139/1A	Private	Wet	100	1. S. Jamaluddin S/o. Samsultha Sayab, Melvisharam. 2. Thausheep Ahamed, S/o. Athalab Ahamed, Melvisharam.
		145/2	Private	Dry	116	Arivayagan S/o. Dakshnamoorthy (Darmakartha), Easwaran Koil, Melvisharam
		165/1	Private	Wet	100	1. Sagira Banu, W/o. Janapdin, 2. Abdul Jamil, S/o. Esaksaiab, Melvisharam
		165/2	Private	Wet	100	1. Sagira Banu, W/o. Janapdin. 2. Abdul Jamil, S/o. Esaksaiab, Melvisharam
		165/3A	Private	Wet	100	Arivayagan S/o. Dakshnamoorthy (Darmakartha), Easwaran Koil, Melvisharam
		165/4A	Private	Wet	250	1. M.R. Sagira Banu, W/o. Jairulapdeen, Melvisharam
		173/2A2	Private	Wet	470	K.M. Baruk Sayab, S/o. Late. Mohamed Ibrahim, Melvisharam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		174/2A2	Private	Wet	336	K.M. Baruk Sayab, S/o. Late. Mohamed Ibrahim, Melvisharam
		175/2A2	Private	Wet	207	1. Tmt. Sythabi Begam, W/o. Baruksayab, 2. Latheef Sayab, S/o. Ismail Sahib, Melvisharam
		176/1B	Private	Wet	85	2. Tmt. Sythabi Begam, W/o. Baruksayab, 3. Latheef Sayab, S/o. Ismail Sahib, Melvisharam
		184/2B	Private	Wet	62	Sythabeen Begam, W/o. K.M. Barak Sayab, Melvisharams
		200/1B	Private	Wet	5	Mohammed Ismail, S/o. Mohammed Ibrahim, Melvisharam
		202/1A2	Private	Wet	113	Magarunnisha W/o. late. Ahamed Basha, Melvisharam
		204/1A2	Private	Wet	181	Abdul Salam, S/o. Late. Abdul Wahab, Melvisharam
		204/2A2	Private	Wet	294	Abdul Razeed, S/o. Late Abdul Zabbar, Melvisharam
		205/1A2	Private	Wet	150	K.C. Aghkar Ahmed, S/o. Late. Abdul Suban, Melvisharam
		205/2A2	Private	Wet	157	K.C. Aghkar Ahmed, S/o. Late. Abdul Suban, Melvisharam
		205/3A2	Private	Wet	152	Tmt. Jagirunnisha, W/O. Mohamed Yagib, Melvisharam.
		206/1A1 B	Private	Wet	196	Chandiraleka W/o. Balaraman, Vellore
		206/1B1 B	Private	Wet	207	Yasmin Banu, W/o. Ragamadulla, Melvisharam
		206/2A2	Private	Wet	523	Abdul Salam Sayab, S/o. Late. Ismail Sahib, Melvisharam
		208/1A	Private	Wet	300	Anwar Basha, S/o. K. Piyara John, Ranipet
		208/2A	Private	Wet	50	Abdul Salam Sayab, S/o. late. Ismail Sayab, Ranipet

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		237/1A1 B	Private	Dry	367	1. Nizar Ahamed, S/o. Late. Abdul Rasheed, 2. Jabar Ahamed, S/o. Late. Abdul Rashed Melvisharam.
		238/1B	Private	Wet	910	G.M. Kalimulla, S/o. Abdul Lathief Sayab, Melvisharam
		240/2	Private	Dry	24	Abdul Mazeed, S/o. Ekbal Ahamed, Melvisharam
		257/3A2	Private	Dry	624	M. Jarbarullah, S/o. Mohammed Mujar, Melvisharam
		258/1A1 B	Private	Dry	637	1. M.D. Mohammed Ayub, S/o. Late. Abdulgani 2. Mohammed. Usuf S/o. Late. Abdul Gani, 3. Kurusheeth Begum, D/o. Abdul gani, 4. Shamina Banu, D/o. Abdul Gani, Melvisharam
		258/1B2	Private	Dry	1023	1. Malak Mohammed Thameem, S/o. Malak. Azi Mohammed Azim, Melvisharam 2. Mohammed Ayub, S/o. Abdul Gani, Melvisharam



1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Keelimal</b>	286/1A	Private	House Site	500	1. Lakshmi W/o. Mani Mandiri, 2. America W/o. Sukuri, 3. Adhimulam, S/o. Duraisamy, Puttuthaku
		286/1B	Private	House Site	250	1) Ellammal, W/o. Ramasamy, Puttuthaku
		286/1C	Private	House Site	150	1) Jamuna, W/o. Kumar Achery, Melakuppam
		286/2A1	Private	Dry	135	Adhimulam, S/o. Duraiswamy, Puttuthaku, Mala, W/o. Madava Mandiri, Puttuthaku
		286/2B1	Private	Dry	93	1) Krishna Mandiri, S/o. Ranga Mandiri, Puttuthaku, Purushothaman, S/o. Narayanasamy, Puttuthaku
		287/1A	Private	House site	100	1) Jamuna, W/o. Kumar Achari, Melakuppam
		287/1B	Private	House site	200	1) Krishnamandiri, S/o. Ranga Mandiri, Puttuthaku
		287/2A	Private	Dry	103	1) Purushothaman, S/o. Narayanasamy, 2) R. Kannaki, W/o. Rajendiran, Puttuthaku
		287/3A	Private	Dry	600	1. Krishnamandiri, S/o. Ranga Mandiri, Puttuthaku 2. Gnanaprakasam, S/o. Patchayappa Mudali, Sathuvachari 3. Mayavathi, W/o. Natarajan, Puttuthaku
		287/3B1	Private	House site	232	Subramani, S/o. Arumugam, Kilminal
		287/3B2	Private	House Site	218	1) Eakambara Mudali, S/o. Govinda Raju Mudali, Melakuppam, 2) Kalyani, W/o. Sekar, Melakuppam 3. Natesa Mudali, S/o. Govindaraji, Melakuppam, 4) Palani, S/o. Arumugam, Puttuthaku

1	2	3	4	5	6	7
		287/3C1 A	Private	Dry	577	1) Purushothamān, S/o.Narayanasamy, Puttuthaku 2) Natesa Mudali, S/o.Govindaraji, Kilminnal, 3) Ravichandran, S/o. Kalastrudayar, Vellore 4) M. Krishnan, S/o. Murukesan, Manguppam
		287/4A	Private	House Site	300	1)Purushothaman, S/o.Narayanaswamy, Puttuthaku 2) Malliga W/o. Kulandai, Puttuthaku
		287/4B	Private	House site	300	1. Ellammal, W/o.Ramaswamy, Puttuthaku
		287/4C1	Private	House site	295	1. Purushothaman, S/o. Narayanasamy, Puttuthaku 2. Mala W/o. Madava mandiri, Puttuthaku
		287/4C2 A	Private	Dry	1002	1. Mala, W/o. Madava Mandiri, Puttuthaku 2. Tamilarasi, W/o. Shanmugam, Puttuthaku
		288	Private	Dry	550	1) Govindaswamy, S/o.Munisamy, 2) Kupusamy, S/o. Ramanjalu 3) Pappaiyan, S/o. Govindaswamy, 4) Ramamoorthy, S/o. Govindasamy, Pattuthaku
		289/2A	Private	Dry	3320	1) Pappaiyan, S/o.Govindasam y, 2) Govindasamy, S/o.Munisamy 3) Ramamurthy, S/o.Govindasamy, Puttuthaku 4) Amudha W/o.Sadasivam, Melakuppam 5) Amsa W/o. Palani, Narayanapuram 6) Padmini, W/o.Subramani

						7) Kuppusamy, S/o.Mahadevapillai 8) Mahadevapillai.S/o.Appapil lai 9) G. Mani, S/o. Govindasamy 10) M.Karpagam W/o.Moorthy 11) Elumalai, S/o.Appakutti 12) Sekar,S/o.Punniyakoti, 13) Murugesan, S/o. Kuppusamy 14) Sivagami, W/o. Balaraman 15) Ganesan, S/o. Kuppusamy, 16) K. Vinayagam, S/o. Kuppusamy 17) Venkatesan, S/o. Govindan, Puttuthaku
		290A/1A	Private	Dry	840	1. Venkatesan, S/o.Govindan 2. Vagiravel, S/o.Umapathy 3. Murukesan, S/o.Gangagowder, Puttuthaku 4 Jayapal S/o. Kupusamy, Gudiyatham 5 Banumathy, W/o.Late. Palani, Puttuthakus
		290B/1A	Private	Dry	795	Kuppammal, W/o. Kuppusamy, Kilminnal
		291/1	Private	Dry	3462	Krishnan, S/o. Kanniyappa Gounder. Puttuthaku
		313/2A1	Private	Dry	418	1. Vinothkumar, S/o. Ganesan, 2. Sankar, S/o. Munusamy @ Babu, Puttuthaku
		313/2B1	Private	Dry	60	1) Vinoth Kumar, S/o.Ganesah 2) Sankar S/o. Mannarsamy 3) Kanniyammal, W/o.Annamalai, Puttuthaku
		313/2C1	Private	Dry	380	1) K. Vinoth Kumar, S/o.Ganesan, Puthuthaku, 2) Sankar, S/o.Mannarsamy, Puttuthaku
		313/2D	Private	Dry	350	Kanniyammal, W/o. Annamali Puttuthaku

1	2	3	4	5	6	7
		313/2E1	Private	Dry	549	1. Kanthamani, W/o.Vellai, 2. Rajendran, S/o. Vellai 3. Kanniyappan S/o.Vellai 4. Vajiravel S/o. Vellai, Puttuthaku
		314/1B1 A	Private	Dry	400	Janagiraman, S/o. Murugappa, Kilminnal
		314/1B4 A	Private	Dry	1198	Mumtaz Begam, W/o.Mahamed Asipulla, Sathuvachari
		314/2A2 A	Private	Dry	1608	1. Ramamoorthy, S/o. Sanjeevi 2. Venugopal, S/o. Sanjeevi 3. Karunakaran, S/o. Sanjeevi 4. Usharani, W/o. Kannaiya, Kannigapuram
		314/2C2 A	Private	Dry	1121	1. Ramamoorthy, S/o. Sanjeevi 2. Venugopal, S/o. Sanjeevi 3. Karunakaran, S/o. Sanjeevi 4. Usharani, W/o. Kannaiya, Kannigapuram
		314/2D1	Private	Dry	80	1. Ramamoorthy, S/o. Sanjeevi 2. Venugopal, S/o. Sanjeevi 3. Karunakaran, S/o. Sanjeevi 4. Usharani, W/o. Kannaiya, Kannigapuram
		319/1A1	Private	Wet	230	V.S. Nathan, S/o. Vellaiyan, Vellore
		319/1B1	Private	Wet	456	R.Kumar, S/o. Ramagounder, Muthuswamy, S/o. Ramaswamy, Kannigapuram.
		319/2A	Private	Wet	578	R. Kumar, S/o.Late.Ramagounder, Kannigapuram
		320/1A1	Private	Dry	72	Periyappa, S/o. Beema Gounder, Kanigapuram
		322/1	Private	Dry	1895	V.S.Nathan, S/o.Vellaiyan, Vellore

1	2	3	4	5	6	7
		153/3	Private	Dry	200	Sadayan, S/o.Krishnan, Kannigapuram Jagadevan, S/o.Krishna Gounder, Kannigapuram
		153/4	Private	Dry	200	1)Sadayan, S/o.Krishnan, Jagedev S/o. Krishna, Kannigapuram
		153/5	Private	Dry	250	T. Munisamy, S/o. Thandavarayan, Kannigapuram
		153/6A	Private	Dry	705	Govindammal, S/o. Perumal, Kannigapuram
		153/7A	Private	Dry	75	1. Ramaswamy, S/o. Perumal, Kannigapuram 2. Narayanaswamy, S/o.Periyappa @ Munisamy, Kannigapuram
		153/8A	Private	Dry	120	Dhanasekaran, S/o. Veeraswamy, Kannigapuram Thamodaram, S/o. Narayanan, Kannigapuram
		153/15A	Private	Dry	520	1. Ramaswamy, S/o.Perumal, Kannigapuram, 2. Narayanaswamy, S/o.Periyappa Kannigapuram. 3. Govindammal, W/o.Perumal kannigapuram
		153/16A	Private	Dry	540	1. Ramaswamy, S/o.Perumal, Kannigapuram, 2. Narayanaswamy, S/o.Periyappa Kannigapuram. 3. Munisamy, S/o. Perumal, Kannigapuram 4. Ellammal, W/o. Perumal, Kannigapuram
		153/17A	Private	Dry	565	1. Ramaswamy, S/o.Perumal, Kannigapuram, 2. Narayanaswamy, S/o.Periyappa Kannigapuram.

1	2	3	4	5	6	7
		153/32A	Private	Dry	80	Chinnakulandai, S/o.Late. Gopal Kannigapuram
		153/33	Private	Dry	500	1. Dhamodaram, S/o.Narayanaswamy, Kannigapuram 2. Chinnakulandai, W/o. Late. Gopal-Kannigapuram
		153/34	Private	Dry	500	1) Gopal S/o. Gopal Gounder, Kannigapuram, 2) Chinnakulandai, W/o.Late.Gopal, Kannigapuram
		153/35A	Private	Dry	40	Gopal S/o. Gopal Gounder, Kannigapuram,
		153/41A	Private	Dry	15	1. Mohandoss S/o.Gopal, Kannigapuram 2. Sagadevan, S/o. Chinnaraj Kannigapuram
		153/42A	Private	Dry	15	T. Munisamy, S/o. Thandavarayan, Kannigapuram
		153/43A	Private	Dry	15	Pitchandi, S/o. Periyasamy, Kannigapuram
		153/44A	Private	Dry	20	Kuppusamy, S/o. Appaswamy, Kannigapuram
		153/45A	Private	Dry	20	Nagappan, S/o.Veerawamy, Kannigapuram
		153/46A1	Private	Dry	1260	Thamodaram, S/o. Narayanaswamy, Kannigapuram
		153/46B1	Private	Dry	25	T. Munisamy, S/o. Thandavarayan, Kannigapuram Thamodaram, S/o. Narayanaswamy, Kannigapuram Munisamy, S/o. Perumal, Kannigapuram Ellammal, S/o. Perumal, Kannigapuram

1	2	3	4	5	6	7
		153/49A	Private	Dry	40	Pitchandi, S/o. Periyaswamy, Kannigapuram
		152/2A	Private	House site	132	Arumugam, S/o. Dhanapal, Kannigapuram
		152/3A	Private	House site	155	Dhamodaram, S/o. Narayasamy, Kannigapuram
		152/4	Private	House site	82	1. Pathrajalam, S/o. Narayanasamy, Kannigapuram
		152/5A	Private	House site	243	1. Munisamy S/o. Perumal, Kannigapuram 2. Elammal, W/o. Perumal, Kannigapuram
		152/6	Private	House site	74	Muniammal S/o. Late. Subramani, Kannigapuram
		152/7	Private	House site	45	Rajammal, W/o. Narashiman Palani, S/o. Kuppusamy, Kannigapuram
		152/8	Private	House site	214	Arumugam, S/o. Dhanapal, Kannigapuram
		152/9	Private	House site	159	Mailvaganam, S/o. Gopala Krishnan, Kannigapuram, Ravi S/o. Gopala Krishnan, Kannigapuram
		152/10	Private	House site	106	Indiraniammal, W/o. Late. Munirathinam, Kannigapuram
		152/11	Private	House site	169	Periyappa Gounder S/o. Beema Murugesan, Kannigapuram
		152/12	Private	House site	144	Ellappan S/o. Late. Muruga Gounder, Kannigapuram
		152/13	Private	House site	154	Ramamoorthy, S/o. Sanjeevi Gounder, Kannigapuram

1	2	3	4	5	6	7
		152/14	Private	House site	312	Ellammal, W/o. Perumal, Kannigapuram
		149/1A	Private	House site	75	1. Chinnakulandai, W/o.Late. Gopal, Kannigapuram 2. Kuppusamy, S/o.Appasamy, Kannigapuram 3. Arumugam, S/o.Dhanapal, Kannigapuram 4. Neelakandan, S/o. Sadayan, Kannigapuram 5. Rukmani, W/o. Jagadevan, Kannigapuram.
		460/2	Private	Dry	305	Arulmigu Kasivishwanathar Koil
		326/2	Private	Dry	904	Arulmigu Kasivishwanathar Koil
		329/1C	Private	Dry	1434	1) R. Krishnan, S/o.Late.Rathna Mudali, Puttuthaku, 2.Ramuammal, W/o. Jayarama Gounder, Puttuthaku 3) Mani, S/o.Chinnaraji Gounder, Kannigapuram 4) Chinraj S/o. Vellai, Kannigapuram 5)The Diocese of Vellore Society Kilminnal
		329/2B	Private	Dry	624	1. Chinnaraji, S/o. Vellai, Kannigapuram 2. Mani, S/o. Chinnaraji, Kannigapuram
		352/2B	Private	Dry	42	1. Periyapa S/o. Beema Sanjeevi, Kannigapuram
		352/3B	Private	Dry	185	Loganathan, S/o. Subramani, Kannigapuram
		352/4B	Private	Dry	160	Allimuthu, S/o. Subramani, Kannigapuram
		355/1B2	Private	Dry	800	Chinnaraj, S/o. Vellai, Sagadevan S/o. Chinnaraj, Mani, S/o. Chinnaraj, Mohandoss, S/o. Gopal, Kannigapuram Village



1	2	3	4	5	6	7
		355/2B	Private	Dry	50	Anish Ahmed, Melvisharam
		354/2A3 B	Private	Dry	700	Chinnaraj, S/o. Vellai, Sagadeva S/o. Chinnaraj, Mani, S/o. Chinnaraj, Mohandoss, S/o. Gopal, Kannigapuram Village
		354/2A4 B	Private	Dry	500	Shantha, W/o. Jayagopi, Perumal, S/o. Late. Durairaj, Kannigapuram
		354/2A12 B	Private	Dry	250	Muniammal, W/o. Perumal, Kannigapuram
		354/2A13 B	Private	Dry	212	Muniammal, W/o. Perumal, Kannigapuram
		354/2A17 B	Private	Dry	165	R. Kumar, S/o. Ramagounder, Kannigapuram Amaravathi, W/o. Periyappa, Kannigapuram.
		354/2A18 B	Private	Dry	22	R. Kumar, S/o. Ramagounder, Kannigapuram Amaravathi, W/o. Periyappa, Kannigapuram.
		354/2B2	Private	Dry	350	Shantha W/o. Jayagopi, Kannigapuram
		351/1A2	Private	Dry	1238	Amaravathi, W/o. Periyappa, Kannigapuram.
		350/1B	Private	Dry	514	1. Renuga, W/o. Thanigaivel, Kannigapuram 2. Sankar, S/o. Narayanasamy, Kannigapuram 3. Thanigaivel, W/o. Jambulingam, Kannigapuram 4. Samundeeswari, W/o. Sankar, Kannigapuram

		461/1A2	Private	Dry	1200	Dekshnamurthy S/o. Margasagaya gounder, Kandasamy, S/o. Sadaiappan, Malathy, W/o. Mahalingam, Damodaran S/o. Balaraman, Viswanathan S/o. Late. Sathya Varadachari, Prakasam S/o. Bheema Raj, Babu, S/o. Beemaraj, Kannigapuram.
		463/2	Private	Dry	233	1. Kandaswamy, S/o. Sadaya Gounder, Puttuthaku...

1	2	3	4	5	6	7
3	Arapakkam	207/4	Private	Dry	1532	1. S.P. Santhalingam 2. S.P. Ganesan 3. S.P. Rathakrishnan 4. S.P. Dayalan, Sons of Late. Ponnusamy, Sathuvachari.
		207/6	Private	Dry	200	1) Ekabaram Chetty 2) Jaganatha Chetty 3) Deivasigamani, S/o. Srinivasa Chetty, 4) Dakshnamoorthy 5) Kasi, S/o. Sadasivam 6) Mohammed Ismail, Vellore
		207/7	Private	Dry	1162	Pathimasowthi, W/o. Syed Ahamed Ragila W/o. Sabuthullah Sahib, Vellore.
		207/IB I	Private	Dry	2420	1. Sankaran Thambiran, S/o. Punniyakodi, Rangapuram,
		222/8A 1	Private	Dry	1085	1. Subramani, S/o. Late Manicka Gounder, Arappakkam, 2. A. Murukesan S/o. Arunachalam, Vellore. 3. Chinna kulandai, S/o. Kuppa Gounder, Arappakkam.
		222/12 A1	Private	Dry	300	Nataraja mudaliyar, S/o. Desingu Mudaliyar Arappakkam.
		231/2A	Private	Dry	1000	Kasinatha Mudaliyar, S/o. late Chinnappa Mudaliyar, Arappakkam.
		232/2A	Private	Dry	1600	Sulaman, S/o. Mohanmedgiyak, Arappakkam K. Tagikhan, S/o. Kadarkham, Vellore.
		234/2	Private	House Site	144	1. Saroja W/o. Subramani, Arappakkam.
		234/3	Private	House Site	133	1. Padmanaban, 2. Palani, 3. Shankar, 4. Sapapathi, 5. Thamodaran, 6. Samapth, 7. Kandan, Sons of Gopal Chetty, Arappakkam
		234/4	Private	House Site	152	1. Gopal, 2. Jaganathan, Sons of Manicka Gounder, Arappakkam.
		234/23	Private	House Site	20	S. Parthiban, S/o. Sagadeevan, Arappakkam.

1	2	3	4	5	6	7
		234/24	Private	House Site	64	1. Vasantha, D/o. Chinnakulandai 2. Saraswathi, W/o. Late Chinnakulandai, Arapakkam.
		234/25	Private	House Site	33	Gopal, S/o. Raji Gounder, Arapakkam
		234/26	Private	House Site	51	K.M. Subramani, 2. K.M. Mani, Sons of Murukesa Gounder, Kilminnal.
		234/27	Private	House Site	38	Kanthamal, W/o. Venkatesan, Arapakkam.
		234/28	Private	House Site	20	Govindammal, W/o. Sagadevan, Arapakkam.
		234/29 A	Private	House Site	50	Rajeswari, W/o. Natarajan, Arapakkam.
		234/30	Private	House Site	86	Ammaravathi, W/o. Chinnappa Gounder, Arapakkam.
		234/31	Private	House Site	39	Kannamal, W/o. late Duraisamy, Arapakkam.
		234/33	Private	House Site	110	Deivayanaiyammal, W/o. late Sivaperuman, Arapakkam.
		234/34	Private	House Site	132	Jayaraman, S/o. Narayanasamy, Arapakkam.
		234/36 A	Private	House Site	31	Valliyammal, W/o. Muthusamy, Arapakkam.
		234/61	Private	House Site	49	K. Lakshmi, W/o. Late Kuppusamy, Arapakkam,
		488/1A	Private	House Site	48	P. Arumugam, S/o. Parasurama Gounder, Arapakkam
		488/2B 1	Private	House Site	98	M. Mani, S/o. Muniya Gounder, Arapakkam, 2. Subramani, S/o. Swamy Naicker, Arapakkam.
		488/3B	Private	House Site	127	S. Subramani, S/o. Swamy Naicker, Arapakkam
		488/35 A	Private	House Site	251	K. Mani, S/o. Kuppu gounder, Arapakkam

1	2	3	4	5	6	7
		488/36 A	Private	House Site	47	S. Saroja W/o. Late. Settu, Arapakkam
		488/39	Private	House Site	42	P. Moorthy, S/o. Late. Parasuraman, Arapakkam
		488/40	Private	House Site	27	D. Margabandu, S/o. Ramajaya Mudali Arapakkam
		488/42	Private	House Site	63	D. Velayutham Chettiyar, S/o. Arumuga Chettiyar, Arapakkam
		488/44	Private	House Site	20	D. Meenakshiammal, W/o. Late. Deivasigamani, Arapakkam
		488/45	Private	House Site	36	S. Krishnan, S/o. Late. Subramaniyan, Arapakkam
		488/46	Private	House Site	75	N. Arumugam, S/o. Natarajan, Arapakkam
		488/47	Private	House Site	99	Velayutham Chetty, S/o. Arumuga Chetty, Arapakkam
		489/8	Private	House Site	91	Usain Bee W/o. Kasimkhan, Arapakkam
		489/22	Private	House Site	76	1. Krishnamachari, S/o. Janipathi Achari, 2. Chandiran, S/o. Manickachari, 3. Subramaniachari, S/o. Manickachari, Arapakkam
		489/23 A	Private	House Site	79	S. Usain Sahib, S/o. Chotan Sayab Arapakkam
		489/33	Private	House Site	113	G. Elumalai, S/o. Govindarai, Puduvassoor
		489/34	Private	House Site	120	G. Elumalai, S/o. Govindarai, Puduvassoor
		489/35 A	Private	House Site	38	Kanniyappan, S/o Murugesan, Arapakkam
		106B/2 A	Private	House Site	24	S. Munikrishnan, S/o. Late. Somasundaram, Arapakkam
		106B/2 B	Private	House Site	67	J. Manimegalai, W/o. Late. Jayaraman, Arapakkam

1	2	3	4	5	6	7
		106B/2 C	Private	House Site	60	M. Selvanayagi, W/o. Munikrishnan, Arapakkam
		106B/2 D	Private	House Site	71	G.Elumalai, S/o. Govindaraji, Puduvassoor
		106B/2 E	Private	House Site	16	Elumalai S/o. Govindaraj, Puduvassoor Thanigachalam, S/o. Naina Mudaliar, Arapakkam
		106B/2 F	Private	House Site	62	N.Thanigachalam, S/o. Nainatha Mudali, Arapakkam
		248/1A	Private	Dry	1030	1. Nananmal, W/o. Subramani, 2. Siva Kumar, S/o. Peedambaram, Melakuppam
		248/2B 1A	Private	Dry	1112	M. Narayanaswamy Mudali, S/o. Late. Muthuswamy Mudali, Melakuppam
		248/2B 2A	Private	Dry	445	R. Mani Mudaliyar, S/o. Ramaswamy Mudali, Melakuppam
		251/2B 1	Private	Dry	2650	1. Kailasan, 2. Ravi 3. R. Mani, Sons of Ramaswamy Mudali, Melakuppam 4. Kalaimagal Saba Regional Office, Thirupathur
		252/3A	Private	Dry	2150	1. Kamalapathi S/o. Muniswamy Chetty, Nandhiyalam 2. A. Subramani Mudali, S/o. Annaswamy Mudali, Puttuthaku 3. Kalaimagal Saba Regional Office, Thirupattur
		264/1B 1	Private	Dry	1150	D.Vasudevan, S/o. Ranga Mannar Naidu, Vellore Ganesa Mudali S/o. Chinnaswamy Mudaliyar, Melakuppam
		254/3A	Private	Dry	2268	1. Kanniyammal, W/o. Pandurangam Melminnal 2. Elumalai, S/o. Appakutti, Puttuthakku 3. Vasudevan, S/o. Rangamannar Naidu, Vellore
		261/3A	Private	Dry	13	Chinna Kulandaiyammal, W/o. Late. Govindan, Arapakkam

1	2	3	4	5	6	7
		260/1B 1	Private	Dry	750	Chinna Kulandaiyammal, W/o. Late. Govindan, Arapakkam
		355/1A 2A	Private	Dry	1061	1. G.Damodaran, S/o. Govindan 2. Ramadoss S/o. Subramani, 3. Kanthammal W/o. Subramani, Vellore
		355/1A 2B	Private	Dry	567	1. G.Damodaran, S/o. Govindan 2. Ramadoss S/o. Subramani, 3. Kanthammal W/o. Subramani, Vellore
		358/1A 1	Private	Dry	900	1. S. Ramadoss, S/o. Subramani, Vellore 2. Kursheed Begam, Vaniyambadi
		358/1B 1	Private	Dry	1129	D. Rasida Begam, W/o. Naizarhan Sayab, Vanniyambadi
		358/2A	Private	Dry	2523	D. Rasida Begam, W/o. Naizarhan Sayab, Vanniyambadi
		359/2A	Private	Dry	754	G. Sakthivel, S/o. S.P. Ganesan, Sathuvachari
		380/6D 2	Private	House Site	200	1. Padmavathi, W/o. Subramani, Arapakkam 2. Sivakumar, S/o. Velmurugan, Vellore
		380/6E 1B	Private	House Site	348	1. Laknakumari, W/o. Rajamanivathiyar, Arapakkam 2. Sivakumar, S/o. Late. Velmurugan, Vellore
		380/6E 2B	Private	House Site	138	Narashimma Mandiri, S/o. Nagappa Mandiri, Melminnal
		380/6F 2	Private	House Site	173	1. Narasimma Mandiri, S/o. Nagapamandiri, 2. Lakna Kumari, S/o. Rajamani, 3. Baby W/o. Ranganathan 4. Pattammal, W/o. Murukesan 5. Padmavathi, W/o. Subramani, Melminnal

1	2	3	4	5	6	7
		380/6G 1B	Private	House Site	136	1. Murugesan S/o. Late. Subramani, Melakuppam 2. Kamala, W/o. Paneer Selvam, Velapadi.
		380/6G 2B	Private	House Site	119	1. M. Srinivasan, S/o. Late. Murugesan, 2. Manivannan, S/o. Late. Murugesan Mandiri, 3. Narasimha Mandiri, S/o. Nagapamandiri, Melminnal
		380/6H 2	Private	House Site	76	P. Manoharan, S/o. Poongavanam, Melminnal
		380/6I 2	Private	House Site	48	1. Ganesan, S/o. Kampumandiri, Melminnal
		380/6J 3B	Private	House Site	17	P. Sundaresan S/o. Patchiyapamandiri, Arapakkam
		380/8G 3	Private	Dry	812	1. Kumar, S/o. Rajagopal-Mandiri, Puttuthakku 2. Paneer Selvi, W/o. Chinnakuti 3. K. Karpagam, W/o. Mounth 4. K. Elumalai, S/o. Late. Kuppan, Melminnal
		361/2	Private	Dry	300	R. Ganesan, S/o. Late. Rajagopal Mandiri, Arapakkam
		362/35 B	Private	House Site	42	A. Kumaraswamy, S/o. Late. Appadurai, Sivarayapuram
		362/36	Private	House Site	183	P. Harikrishnan, S/o. Late. Ponnusamy, Sivarayapuram
		362/42 B	Private	House site	60	M. Panjali, W/o. Late Munisamy, Sivarayapuram
		362/43	Private	House Site	262	S. Raniyammal, W/o. Subramani, Sivarayapuram
		364/23 B	Private	House Site	75	B. Ramesh, S/o. Late. Balakrishnan, Sivarayapuram
		364/30 B	Private	House Site	21	A. Kumaraswamy, S/o. Late. Appadurai, Sivarayapuram
		105/1A 2	Private	Dry	495	1. Aurmuga Mudaliyar, S/o. Desing Mudaliyar 2. Ragunathan, S/o. Veeraswamy, Melakuppam 3. Eakambara Chetty, 4. Panduranga Chetty, Sons of Chokalinga Chetty, 5. Chandiran S/o. Elapachetty,



						6. Ramakrishnan, S/o. Narasimmachetty, Arapakkam
		105/1B 2	Private	Dry	40	A.R. Mani, S/o Ramaswamy, Arapakkam
		105/1C 2	Private	Dry	2	Ramakrishnan, S/o. Narasimma Chetty, Arapakkam
		105/2B	Private	Dry	80	1. Ravi S/o. Damodarachetty, 2. Senguttavan, S/o. Damodara Chetty, Arapakkam
		80/4A2	Private	Dry	100	1. Arumugam, S/o. Natarajan, Arapakkam 2. Vivasaya Sangakatidam, Arapakkam
		90/2A2	Private	Dry	200	1. Jaganathachetty, S/o. Narayana Chetty, 2. Shanmuga Chetty, S/o. Deivasigamani Chetty, 3. Eakambara Chetty, S/o. Narayana Chetty, 4. Kasichetty, S/o. Late. Sadasiva Chetty, 5. Dhakshanamoorthy, S/o. Late. Srinivasachetty, Arapakkam
		90/2B2	Private	Dry	180	1. Chinnaraji, S/o. Krishnan, 2. Ravichandiran, S/o. Mariyappan, 3. Duraiswamy, S/o. Ramaswamy, Arapakkam
		90/2C2	Private	Dry	440	1. Chinnaraji, S/o. Krishnan, 2. Ravichandiran, S/o. Mariyappan, 3. Duraiswamy, S/o. Ramaswamy, Arapakkam
		102/1A 2B	Private	House Site	100	A. Pandiyan, S/o. Late. Anandan, Arapakkam
		102/1B 2	Private	House Site	100	1. Ravi, 2. Senguttavan, Sons of Thamodara Chetty, Arapakkam 3. Ponnammal, W/o. late. Rasamudaliyar, Ekambaranallore
		102/5B	Private	House Site	125	1. Subraya Mudali, S/o. Late. Thiruvengkata Mudali, 2. A.D. Sekar, S/o. Duraisamy Mudali, Arapakkam
		259/1A 2	Private	Dry	466	1. B. George S/o. Late. Bakiyannathan, Sivarajapuram 2. M. Kumar, S/o. Muniswamy, Arapakkam
		259/1B 2	Private	Dry	400	1. B. George S/o. Late. Bakiyannathan, Sivarajapuram 2. M. Kumar, S/o. Muniswamy, Arapakkam

1	2	3	4	5	6	7
4	Nandiyai am	177/1B2	PRIVATE	Wet	50	Ragamadulla S/o Shek Hyder Babu S/o. Basha sahib, Thameen, S/o. Dastakir, Rathinagiri
		177/2B	PRIVATE	Wet	50	Ragamadulla S/o Shek Hyder Babu.S/o. Basha sahib Thameen,S/o. Dastakir, Rathinagiri
		177/1D	PRIVATE	Wet	700	Ragamadulla S/o Shek Hyder Babu.S/o. Basha sahib Thameen,S/o. Dastakir, Rathinagiri
		177/1A2	PRIVATE	Wet	1335	Ragamadulla S/o Shek Hyder Babu.S/o. Basha sahib Thameen,S/o. Dastakir, Rathinagiri
		173/2	PRIVATE	Dry	1555	1) Raja Ahmed, S/o. Md. Ismail, 2) Nasima Begam,W/o Kharnmisher, 3) Asiya Begam,W/o Abdul Wagid, 4) Agimunisha W/o Nizar Ahamed, 5) Jagara Jamil,S/o.Rafi Ahamed Melvisharam.
		174/2	Private	Dry	450	1) Raja Ahmed, S/o. Md. Ismail, 2) Nasima Begam,W/o Kharnmisher, 3) Asiya Begam,W/o Abdul Wagid, 4) Agimunisha W/o Nizar Ahamed 5) Jagara Jamil,S/o.Rafi Ahamed Melvisharam
		167/2	PRIVATE	Dry	3097	V.S.Nathan,S/o. Vellaiya Chetty, Vellore.

1	2	3	4	5	6	7
		158/1B	PRIVATE	Dry	2800	Babu Samuel, S/o. Mosses, Vellore.
		156/2	PRIVATE	Dry	2822	N.Suresh, S/o V.S. Nathan, Vellore.
		155/1B	PRIVATE	Dry	955	B. Gajendhiramenan, S/o Boopalan, Sathuvacheri.
		155/2B	PRIVATE	Dry	784	B.Vendar Vendhan, S/o. Boopalan, Sathuvachari
		155/3B	PRIVATE	Dry	690	B. Rajanandan, S/o. Boopalan, Sathuvachari
		154/2	PRIVATE	Dry	1712	Sadayappa Mudaliar, S/o. Munisamy Mudaliar, Nandiyalam
		145/1B	PRIVATE	Dry	705	Chinaraji, S/o. Vallaigounder, Sagadevan, S/o. Chinnaraj, Mani, S/o. Chinnaraj, Kannigapuram
		145/2B	PRIVATE	Dry	685	Chinaraji, S/o. Vallaigounder, Sagadevan, S/o. Chinnaraj, Mani, S/o. Chinnaraj, Kannigapuram
		145/3B	PRIVATE	Dry	1155	Chinaraji, S/o. Vallaigounder, Sagadevan, S/o. Chinnaraj, Mani, S/o. Chinnaraj, Kannigapuram
		144/2B	PRIVATE	Dry	4035	Chinaraji, S/o. Vallaigounder, Sagadevan, S/o. Chinnaraj, Mani, S/o. Chinnaraj, Kannigapuram
		144/4B	PRIVATE	Dry	2000	Chinaraji, S/o. Vallaigounder, Sagadevan, S/o. Chinnaraj, Mani, S/o. Chinnaraj, Kannigapuram
		100/2	PRIVATE	Dry	975	Chinaraji, S/o. Vallaigounder, Sagadevan, S/o. Chinnaraj, Mani, S/o. Chinnaraj, Kannigapuram
		99/2A	PRIVATE	Dry	1250	Thangavel, S/o. Kannaiyan, Nandiyalam.
		98/1A	PRIVATE	Dry	390	1) Abdul Salam, S/o. Ismail Basha, 2) Thangaveli, S/o. Kaniyan, 3) Mohan S/o. Kannaiyan, Nandhiyalam

1	2	3	4	5	6	7
		98/3AI	PRIVATE	Dry	1010	1. Mohan S/o. Kanniyar, 2. Abdul Salam, S/o. Ismail 3. Vatchiyammal, W/o. Krishnan, Nandhiyalam
		98/3BI	PRIVATE	Dry	520	1. Mohan S/o. Kanniyar, 2. Abdul Salam, S/o. Ismail 3. Vatchiyammal, S/o. Krishnan, Nandhiyalam
		98/6B	PRIVATE	Dry	1700	Tmt. Indira, W/o. Dharemchand, Arcot.
		96/1A	Private	Wet	400	Tmt. Indira, W/o. Dharemchand Arcot
		97/1BI	Private	Wet	1100	Madeenabi, W/o. Md. Sharif Melvisharam
		66/1A	PRIVATE	Wet	340	Abdul Jamil, S/o. Abdul Rasheed, Melvishaam
		65/2BI	PRIVATE	Wet	1100	Abdul Jamil S/o. Abdul Rasheed, Melvisharam.
		64/2B	PRIVATE	Wet	150	V.S. Nathan, S/o. Vallaiyan Chetty, Vellore
		63/1BI	PRIVATE	Wet	731	V.S. Nathan, S/o. Vallaiyan Chetty, Vellore
		62/2A	PRIVATE	Wet	1548	V.S. Nathan, S/o. Vallaiyan Chetty, Vellore
		53/1BI	PRIVATE	Wet	1512	Abdul Azees, S/o. T.M. Abdulkaboor, Melvisharam
		52/2BI	PRIVATE	Wet	614	Abdul Azees, S/o. T.M. Abdulkaboor, Melvisharam
		52/3BI	PRIVATE	Wet	1383	Abdul Azees, S/o. T.M. Abdulkaboor, Melvisharam
		51/1A	PRIVATE	Wet	1736	Abdul Azees, S/o. T.M. Abdulkaboor, Melvisharam
		46/1A	PRIVATE	Wet	1904	1) M. Ramesh S/o. Muniswamy, 2) Thangaduri S/o. Muniswamy, 3) Sampath S/o. Muniswamy Nandiyalam.

1	2	3	4	5	6	7
		25/2	PRIVATE	Wet	2000	Padal Bai, W/o. Sampathu Raji, Dharmachand, S/o. Sampath Raji, Arcot.
		24/2	PRIVATE	Dry	1015	Padal Bai, W/o. Sampathu Raji, Dharmachand, S/o. Sampath Raji, Arcot.
		23/1B	PRIVATE	Dry	2184	Gajendiran S/o. Nathamuni Nandiyam.
		23/2B	PRIVATE	Dry	1900	Gajendiran S/o. Nathamuni Nandiyam.
		23/3A1B	PRIVATE	Dry	1412	1. Syed Kytzar S/o. Syath Yashim, Melvisharam. 2. Amed Sayab S/o. Syed Yashim, Melvisharam. 3. Subramani S/o. Munivel Naicker, Bangalore.
		23/3A2B	PRIVATE	Dry	1600	Subramani S/o. Munivel Naicker, Bangalore
		23/3A3A	PRIVATE	Dry	550	Abdul Jallel, S/o Khader Mohideen, Nandiyalam
		23/3A3B	PRIVATE	Dry	1350	Subramani S/o. Munivel Nakair, Bangalore.
		23/3A3C	PRIVATE	Dry	1350	Subramani S/o. Munivel Nakair, Bangalore.
		7/1A2	PRIVATE	Dry	4	Ansarsariff S/o. Ismailshabi, Nandiyalam.
		7/1B2	PRIVATE	Dry	155	Ansarsariff S/o. Ismailshabi, Nandiyalam.
		6/1A1B	PRIVATE	Dry	25	Ansarsariff S/o. Ismailshabi, Nandiyalam.
		6/1B1B	PRIVATE	Dry	95	1. Muthu Megurinisha W/o. Nazanahmed 2. Sulthnabegam W/o. Zabal Ahamed, 3. Mohamed Shameem S/o. Mohamed Ashim Sahib, Melvisharam
		6/1A3A	PRIVATE	Dry	1300	Mohamed. Thameem, S/o. Mohamed Ashim Sahib, Melvisharam.

1	2	3	4	5	6	7
		6/1B3A	PRIVATE	Dry	860	Mohamed Shameem S/o. Mohamed Ashim Sahib, Melvisharam.
		334/1A	PRIVATE	Dry	500	Murugesan, S/o. Vijayan, Nandhiyalam.
		334/3B2A	PRIVATE	Dry	434	1. Vijaya Sunder, S/o. Munisamy, Nandhiyalam 2. A. Jamil Basha, S/o. Abdul Malik Nandhiyalam.
		334/3C2A	PRIVATE	Dry	279	Lakshmanan, S/o. Vinayagam Nandhiyalam
		334/3E1	PRIVATE	Dry	226	Balaraman, S/o. Rangavan, Nandhiyalam Yaseem Banu W/o. Md. Rahamadulla Melvisharam.
		334/3F1	PRIVATE	Dry	327	1. Chinnapaiyan, S/o. Munisamy Mandiri, 2. Girivasan, S/o. Munisamy, Nandhiyalam
		322/1B1A	Private	Dry	630	1. Murukesan, S/o. Vijayan, 2. Nagamoorthy, S/o. Venkatesa Perumal, Nandhiyalam
		322/1B2A	Private	Dry	550	1. Murugesan, S/o. Vijayan, Nandhiyalam 2. Nagamoorthy, S/o. Venkatesa Perumal, Nandhiyalam
		322/3	Private	Dry	475	1. Murugesan, S/o. Vijayan, Nandhiyalam 2. Nagamoorthy, S/o. Venkatesa Perumal, Nandhiyalam
		320/1A	Private	Wet	300	1. Mohamed Ismail, 2. Mohammed Ibrahim, 3. Jagir Ushan, Sons of Basha Sahib, Melvisharam.
		320/2A	Private	Wet	300	1. Mohamed Ismail, 2. Mohammed Ibrahim, 3. Jagir Ushan, Sons of Basha Sahib, Melvisharam.

1	2	3	4	5	6	7
		320/3A1A	PRIVATE	Wet	530	Arish Ahamed S/o. K.A. Rasheed, Melvisharam
		320/3A2A	PRIVATE	Wet	115	Arish Ahamed S/o. K.A. Rasheed, Melvisharam
		320/3A3A	PRIVATE	Wet	225	Arish Ahamed S/o. K.A. Rasheed, Melvisharam
		320/3B1	PRIVATE	Wet	470	Arish Ahamed S/o. K.A. Rasheed, Melvisharam
		320/3C1	PRIVATE	Wet	500	Arish Ahamed S/o. K.A. Rasheed, Melvisharam
		293/2A	PRIVATE	Wet	800	M.G.Balasundaram, S/o. Gopala Mudali, Arcot
		292	PRIVATE	Wet	200	Kothandan, S/o. Gopal Mudali, Nandhiyalam M.G. Balasundaran, S/o.Late.Gopal, Arcot.
		290/3A	PRIVATE	Dry	50	1. Rajasekaran S/o. Late.Gopal, Nandhiyalam 2. M.G. Bala Sundaram, S/o. Gopal Mudali, Arcot 3. G. Mani, S/o. Gopal, Malakuppam
		290/3B2	PRIVATE	Dry	40	1. Rajasekaran S/o. Late.Gopal, Nandhiyalam 2. M.G. Bala Sundaram, S/o.Gopal Mudali, Arcot. 3. G. Mani, S/o. Gopal, Malakuppam
		290/3C2	PRIVATE	Dry	35	M.G.Balasundaran, S/o.Gopala Mudaliar, Arcot
		290/4B	PRIVATE	Dry	315	M.G.Balasundaran, S/o.Gopala Mudali, Arcot
		290/5A2	PRIVATE	Dry	120	M.G.Balasundaran, S/o.Gopala Mudali, Arcot
		290/5B	PRIVATE	Dry	100	G.Muthu, S/o. Gopal Mudali, Nandhiyalam
		290/6A2	PRIVATE	Dry	12	M.G.Balasundaran, S/o.Gopala Mandirai, Arcot
		290/6B1	PRIVATE	Dry	182	M.G.Balasundaran, S/o.Gopala Mandirai, Arcot

1	2	3	4	5	6	7
		290/6C2	PRIVATE	Dry	500	1. M.G.Balasundaran, S/o.Gopala Mandirai, Arcot 2. Mohanammal, W/o. Late. Venkatesan, Melakuppam
		289/2	PRIVATE	Dry	70	1. Rajasekaran, S/o.Late. Gopal, Nandhiyalam 2. M.G.Balusundaram, S/o. Gopal, Arcot 3. M. Mami, S/o. Gopal, Melakuppam
		288/2A2	PRIVATE	Dry	403	1. Rajasekarna, S/o.Late.Gopal, Nandhiyalam 2. M.G.Balasundaram, S/o.Gopal, Arcot
		288/3A2	PRIVATE	Dry	42	1. Rajakannan, S/o.Late.Gopal, Nandhiyalam 2. M.G.Balasundaram, S/o.Gopal, Arcot
		287/2A	PRIVATE	Dry	50	1. Rajakannan, S/o.Late.Gopal, Nandhiyalam 2. M.G.Balasundaram, S/o.Gopal, Arcot
		245/1A2	PRIVATE	Wet	93	Mohamed Jabaruthin, S/o. Late. Abdul Sameed, Melvisharam.
		245/3A2	PRIVATE	Wet	48	Mohamed Jabaruthin, S/o. Late. Abdul Sameed, Melvisharam.
		246/2A2	PRIVATE	Wet	280	Mohamed Jabaruthin, S/o. Late. Abdul Sameed, Melvisharam.
		247/1B	PRIVATE	Wet	100	Mohamed Jabaruthin, S/o. Late. Abdul Sameed, Melvisharam.
		242/2	PRIVATE	Dry	295	Mohamed Jabaruthin, S/o. Late. Abdul Sameed, Melvisharam.



1	2	3	4	5	6	7
		237/1B	PRIVATE	Dry	582	Mohamed Jabaruthin, S/o. Late. Abdul Samced, Melvisharam.
		237/2B	PRIVATE	Dry	350	Mohamed Jabarulla, S/o. Late. Abdul Shamed, Melvisharam.
		235/3	PRIVATE	Dry	2400	1. V.Shanthani, W/o. Velu, Arani 2. A.Sathees Kumar, S/o. Anbalagan, Vellore 3. Sridar, S/o. Krishappa Naidu, Nandiyalam 4. Dharmalingam, S/o. Manickam, Vellore
		191/1	PRIVATE	Dry	850	Dharmachand, S/o. Jawaharlal, Vellore. Aneez Ahmed, S/o. Abdul Rasheed Melvisharam.
		192/2	PRIVATE	Dry	1252	Dharmachand, S/o. Jawaharlal, Vellore. Aneez Ahmed, S/o. Abdul Rasheed Melvisharam.
		194/1	PRIVATE	Dry	728	Dharmachand, S/o. Jawaharlal, Vellore. Aneez Ahmed, S/o. Abdul Rasheed Melvisharam.
		187/1A1	PRIVATE	Dry	500	Kanna Gounder, S/o. Veeraswamy, Nandhiyalam
		187/1B1	PRIVATE	Dry	300	Govindaswamy, S/o. Veerasamy, Kilminnal
		187/1C1	PRIVATE	Dry	100	1. Dhamodaran, S/o. Sadayagounder, 2. S. Mani, S/o. Sadaya Gounder, Nandiyalam
		187/2A	PRIVATE	Dry	500	1) Dhamodaran, S/o. Sadayagounder, 2) S. Mani, S/o. Sadaya Gounder, Nandiyalam
		187/3A	PRIVATE	Dry	300	1) Dhamodaran, S/o. Sadayagounder, 2) S. Mani, S/o. Sadaya Gounder, 3) S. Sampath, S/o. Sadaya Gounder, Nandiyalam 4) Ramlal, S/o. Pannalal, Nandiyalam

1	2	3	4	5	6	7
		187/4A	PRIVATE	Dry	300	S. Sampath, S/o. K. Sadaya Gounder, Nandiyalam
		187/5A	PRIVATE	Dry	300	Jubedabi, W/o. Ibrahim Sahib, Melvisharam
		187/6A	PRIVATE	Dry	250	Jubedabi, W/o. Ibrahim Sahib, Melvisharam
		187/7A	PRIVATE	Dry	400	Jubedabi, W/o. Ibrahim Sahib, Melvisharam
		187/8A	PRIVATE	Dry	130	1. Jubedabi, W/o. Ibrahim Sahib, Melvisharam 2. V. Kumar, S/o. Vadivel, Nandiyalam
		187/9A1	PRIVATE	Dry	950	1. Govindswamy, S/o. Veeraswamy, Kilminnal, 2. P. Ramlal, S/o. P. Pannalal, Vellore
		187/9B1	PRIVATE	Dry	950	M. Thulasi Mudaliyar, S/o. Late. Murugesu Mudaliyar, Nandiyalam
		189/1	PRIVATE	Dry	1400	V. Kumar, S/o. Vadivel, Nandiyalam
		188/1	PRIVATE	Dry	350	V. Kumar, S/o. Vadivel, Nandiyalam
		183/1B1	PRIVATE	Dry	350	1. Munisamy, S/o. Ganesan 2. Annamalai, S/o. Krishnan 3. Babu Krishnan, S/o. Thangavel 4. Bonumathi W/o. Mani 5. Manickam, S/o. Thangavel 6. Rajammal, W/o. Parkunan 7. Chinnappa S/o. Munisamy, Nandiyalam.
		183/1B2	Private	Dry	450	1. Gopal Naidu, S/o. Gubendra Naidu, 2. G. Kothandan, S/o. Govindaraji, 3. Thanalakshmi, W/o. Annamalai, Thennandiyalam
		183/1B3	Private	Dry	160	Ravichandran, S/o. Subramani, Nandiyalam

205

1	2	3	4	5	6	7
		183/1B4	Private	House Site	170	1. Dhamodaram, S/o. Chandira Mahadevan 2. Thulasidaran, S/o. Chandira Madavan, Nandhiyalam
		183/1B5		House Site	280	1. Dhamodaram, 2. Thulasidaran, 3. Jayapal, 4. Boopalan, 5. Selvaraj, Sons of Chandira Mahadevan, Nandhiyalam
		183/1B6	PRIVATE	House Site	90	Dhanalakshmi, W/o. Annamalai, Nandhiyalam.
		183/1B7	PRIVATE	House Site	190	1. Lokeshwari, W/o. Varadharaj, Mankuppam 2. Varadaraj Mudali, S/o. Thanigachalam, Nandhiyalam.
		183/1B8	PRIVATE	House Site	55	Rajammal, W/o. Parkunam, Nandhiyalam
		183/1B9	PRIVATE	House Site	41	TMT.Bavani W/o.Mani, Nandhiyalam
		183/1B10	PRIVATE	House Site	20	Tmt. Bavani, W/o Mani, Nandhiyalam
		183/1B11	PRIVATE	Dry	20	Chinnappa Gounder, S/o.Munisamy, Nandhiyalam
		183/1B12	PRIVATE	House Site	61	1. Munisamy, S/o. Ganesa Gounder, Nandhiyalam
		183/1B13	PRIVATE	House Site	71	Chinnappa, Gounder S/o Late Munisamy, Nandhiyalam
		183/1B15	Private	House Site	168	1. Chinnappa Gounder S/o.Late.Munisamy 2. Lakshmi W/o. Annamalai, 3. Annamalai, W/o. Krishnan, Nandhiyalam.
		183/1B16	Private	House Site	72	T. Manickam, S/o. Thangavel Natar, Nandhiyalam
		183/1B17	Private	House Site	63	Balakrishnan, S/o. Thangavel Natar, Nandhiyalam
		183/1B18	Private	House Site	177	C. Boopalan, S/o. Chandira Mahadevan, Nandhiyalam

1	2	3	4	5	6	7
		183/1B19	PRIVATE	House Site	38	1. R. Easwarappan, S/o. Late. Raji Naicker, Arcot 2. Babu S/o. Kannan, Manthangal Mottur
		183/1B20	PRIVATE	House Site	20	1. Kanaga W/o. Vinayagam, 2. Gopal S/o. Late. Rangaswamy, Nandiyalam
		183/1B78	PRIVATE	House Site	88	Gopalsamy, S/o. Chirmasamy, Nandiyalam
		183/1B79	PRIVATE	House Site	177	1. Tmt. M. Punitha W/o. Late. Manoharan, 2. K. Dhanapal, S/o. Krishnan, Nandhiyalam.
		181/2B1	PRIVATE	Dry	1200	K. Mahalingam, S/o. Kesava Mudaliar, Melakuppam.
		181/2C1A	PRIVATE	Dry	980	Munisamy, S/o. Ramasamy, Nandhiyalam
		180/2A	PRIVATE	Dry	1920	1) Ragamudallah S/o. Shakhider, 2) Babu, S/o. Basha Sahib, 3) D. Thameem S/o. Thasthagir, Rathnagiri
		179/1A	PRIVATE	Dry	405	Kuppammal, W/o. Thangaraj Nandhiyalam.
		179/2A	PRIVATE	Dry	140	Chinnapponnu W/o. Perumal, Nandhiyalam
		430/3	PRIVATE	Dry	1000	Boomitharan, Velu, Sons of Beema gounder, Kannigapuram
		234/3B	PRIVATE	House Site	148	Karthikeyan, S/o. Subramani, Munirathinam, S/o. Mannu, Sivakumar, S/o. Subramani, Gopal S/o. Kannaiyan, Venkatapathy, S/o. Venkatachalapillai, Nandhiyalam
		234/3C	PRIVATE	House Site	1791	Karthikeyan, S/o. Subramani, Munirathinam, S/o. Mannu, Sivakumar, S/o. Subramani, Gopal S/o. Kannaiyan, Venkatapathy, S/o. Venkatachalapillai, Nandhiyalam

1	2	3	4	5	6	7
		234/3D	PRIVATE	House Site	280	Karthikeyan, S/o. Subramani, Munirathiam, S/o. Mannu, Sivakumar, S/o. Subramani, Gopal S/o. Kannaiyan, Venkatapathy, S/o. Venkatachalapillai, Nandhiyalam
		5/3B2	PRIVATE	Dry	15	Sultan S/o. Syed Yusuf, Kuppan S/o. Sigari, Melvisharam
		5/3C1B	PRIVATE	Dry	200	Abdul Wahid S/o. Abdul Wahab, Melvisharam.

1	2	3	4	5	6	7
5	Veppur.	10/2	PRIV ATE	Wet	430	Vepoor Mackhan Mosque
		12/1B	PRIV ATE	Wet	612	Asain Raja, Vepur
		29/1B	PRIV ATE	Wet	850	D. Baskaran, S/o.N.Devaraji Mudaliyar, Arcot
		69/3A2	PRIV ATE	Wet	1785	Tmt. Chokkubai Ammal, W/o. Kannan, Arcot
		67/1B	PRIV ATE	Wet	1320	Tmt. Janagiammal, W/o.Late. Leela Vinothan, Arcot
		65/3A2	PRIV ATE	Wet	120	C. Sarathi, S/o. N.Chinnapattu, Navalpur
		64/1A2	PRIV ATE	Wet	191	S. Kannan, S/o. Singara Naicker, Arcot
		64/2A2	PRIV ATE	Wet	594	1. C.Sarathi, S/o.N.Chinnapattu, Navalpur 2. Kanniyammal W/o. Late. Subramani, Vepur
		63/1B	PRIV ATE	Wet	150	S. Kannan, S/o. Singara Naicker, Arcot
		62/1B	PRIV ATE	Wet	150	Tmt. Chokkubaiyammal, W/o. Kannan, Arcot
		62/2A2	PRIV ATE	Wet	250	S. Kannan, S/o. Singara Naicker, Arcot
		60/1A2	PRIV ATE	Wet	196	A.N. Shankar, S/o.A.K.Nataraja Naicker, Arcot
		60/2A2	PRIV ATE	Wet	80	A.N. Shankar, S/o. A.K. Nataraja Naicker
		60/3A2	PRIV ATE	Wet	67	1. A.N.Ganesan, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot 2. Chokkubaiyammal, W/o. Kannan, Arcot.

1	2	3	4	5	6	7
		60/4A1B	PRIV ATE	Wet	40	1. A.N.Ganesan, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot 2. Chokbpaiyammal, W/o. Kannan, Arcot.
		60/4A2B	PRIV ATE	Wet	89	F.T. Joshop, S/o.K.F. Thamos, Arcot
		59/1A2	PRIV ATE	Wet	50	A.N.Selvam, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		59/1B2	PRIV ATE	Wet	48	A.N.Selvam, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		59/1C2	PRIV ATE	Wet	41	A.N.Selvam, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		58/1A2	PRIV ATE	Wet	290	Noor Ahamed, S/o.K.Shakbasha sayab Ranipet
		58/1B2	PRIV ATE	Wet	312	A.N. Sankar, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		153/2A2	PRIV ATE	Wet	285	Tmt. Vishalakshiyammal, W/o. Kumaraswamy, Vepur
		135/1B	PRIV ATE	Wet	364	Noor Ahamed, S/o.K.Shakbasha sayab Ranipet
		134/1B	PRIV ATE	Wet	366	Noor Ahamed, S/o.K.Shakbasha sayab Ranipet
		133/2B	PRIV ATE	Wet	155	1. Mohamed Ibrahim, S/o. Mohamed Asim Sayab, Melvisharam 2. Noor Ahamed, S/o.K.Shak Basha, Ranipet
		137/2A1	PRIV ATE	Wet	400	Tmt. V. Shantha, W/o. Late. Varathan, Vepur.
		137/2B1	PRIV ATE	Wet	400	M. Mohamed Ibrahim Sayab, S/o. Mohammed Asim Sayab, Melvisharam.
		132/2	PRIV ATE	Wet	600.	C. Sampath, S/o. Chinnappa Gounder, Vepur

1	2	3	4	5	6	7
		127/3B	PRIV ATE	Wet	265	C. Sampath, S/o. Chinnappa Gounder, Vepur
		130/1B	PRIV ATE	Wet	375	G. Mohamed Kalimulla, S/o. Abdul Lathef Sayab, Melvisharam
		150/2	PRIV ATE	Wet	440	Tmt. Panjalai, W/o. Late. Venkatachalam Mudaliyar, Vepur
		151/1B	PRIV ATE	Wet	400	D.K. Jayakumari, D/o. Late. Kuppusamy Mudaliyar, Vellore
		154/1B	PRIV ATE	Wet	400	Tmt. Amirthammal, W/o. Late. Sundaram Naicker, Vepur
		155/1B	PRIV ATE	Wet	400	Tmt. Amirthammal, W/o. Late. Sundaram Naicker, Vepur
		159/1A1 B	PRIV ATE	Wet	50	A.N. Saravanan, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		159/1A2 B	PRIV ATE	Wet	100	A.N. Selvan, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		159/1A3 B	PRIV ATE	Wet	100	D.Venkateswara Kotti, S/o.Subramaniya Naicker, Vepur
		159/2A2	PRIV ATE	Wet	150	Tmt. Amirthamal, W/o. Late. Sundaram Naicker, Vepur
		161/1A2	PRIV ATE	Wet	300	A.N. Saravanan, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		161/2A2	PRIV ATE	Wet	100	A.N. Saravanan, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		161/3A2	PRIV ATE	Wet	150	A.N. Saravanan, S/o. A.K. Nataraja Naicker, Arcot
		212/2A	PRIV ATE	Dry	110	1. Jeenath Begam, W/o. Mohamed Ibrahim, Melvisharam 2. Jayavel, S/o. Munisamy Naicker, Vepur



1	2	3	4	5	6	7
		215/1A1	PRIVATE	Dry	180	1. M. Jayakel, S/o. S. o. Murtammy Naicker, Vepoor 2. Tmt. Malat, W/o W. o. Vasudevan, Bangalore
		215/1A3	PRIVATE	Dry	230	1. M. Jayakel, S/o. S. o. Murtammy Naicker, Vepoor 2. Tmt. Malat, W/o W. o. Vasudevan, Bangalore
		215/1B2	PRIVATE	Dry	85	K. Ranganayagi, W/o W. o. Late Singaram, Vepoor
		214/1B1 B	PRIVATE	Wet	180	1. Jayakel, S/o. Murtammy Naicker, Vepoor 2. Ranganayagi, W/o Late Singaram, Vepoor
		214/1B2 B	PRIVATE	Wet	160	Tmt. Ahirani, W/o W. o. Parthiban, Vepoor
		163/1B	PRIVATE	Wet	200	Tmt. Gajalakshmi, W/o N. Shanmugam, Rasathapuram
		223/1B	PRIVATE	Wet	300	A.S. Muralidaran, S/o. S. o. Sriramula, Vepoor
		225/1B	PRIVATE	Wet	400	A.K. Natarajan, S/o. S. o. A.V. Kuppuswamy Naicker, Arcot

[F. No. NHAI/13011/46-IR(3D)/PD-2002]

N. K. SINHA, Director General (Road Development) and Spl. Secy.